



• खून की कमी • पेडू में दर्द • कमर कटना • तनाव • चिड़चिड़ापन

90 वर्षों से महिलाओं की No.1 औषधि व टॉनिक

• कमजोरी • हथेली व तलवों में जलन • खून साफ़ करे • रूप निखारे

आदि में सहायक



पूरे माह रहें एक्टिव,
फिट व स्वस्थ

हेमपुष्पा

Helpline: 011-23261111



बहावलपुर में धमाके

**मंगलवार रात 1.05 मिनट से
1.30 बजे तक... वे 25 मिनट**

1 कुल 25 मिनट की कार्रवाई में सेना, वायुसेना ने पीओके और पाकिस्तान में की कार्रवाई

2 पाकिस्तान के पंजाब में
नेस्तनाबूद किए 9 आतंकी
ठिकाने, 100 आतंकी डेर

3 पूरी सैन्य कार्रवाई के भारत ने वीडियो के साथ साक्ष्य भी सार्वजनिक किए हैं

4 जैश-ए-मोहम्मद और लश्करे तैयबा के 5 ठिकानों समेत कुल 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया

दुश्मन की हर हरकत पर पैनी निगाह बनाए रखने के निर्देश दिए

पहलगाम में हुए आतंकी हमले का 'ऑपरेशन सिंदूर' से 'भारत' ने दे दिया करारा जवाब

हरिभूमि ब्यूरो▶▶नई दिल्ली

भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के जरिए पाकिस्तान और उसके पाले-पोसे हुए आतंकवादियों को पहलगाम आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। जिससे पीड़ितों को आश्रिकार न्याय मिला है। बीते मंगलवार देर रात 1 बजकर 5 मिनट से लेकर डेढ़ बजे तक यानी कुल 25 मिनट के अंदर भारतीय सेना और वायुसेना ने इस संयुक्त सैन्य अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मौजूद 4 और पाकिस्तान अश्रिकृत कर्मचार (पीओके) में मौजूद जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर तैयबा के 5 ठिकानों समेत कुल 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। इसमें कुल करीब 100 आतंकवादी मारे गए हैं। पहलगाम हमले के दो सप्ताह बाद की गई इस पूरी सैन्य कार्रवाई के भारत ने वीरोंडिप्पे सप्थी श्री सार्वजनिक किए हैं। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बुधवार को एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। उनके साथ पहली बार सेना और वायुसेना की दो महिला **▶▶ शोष पेज 7 पर**

पाकिस्तान से
लगी सीमाओं पर
पूरी मुस्तैदी से तैनात
हैं भारत की सशस्त्र
सेनाएं, बदशित नहीं
की जाएगी कोई भी
नापाक हरकत।

पीएम ने की कैबिनेट, सीसीएस की बैठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सात लोक कल्याण मार्ग पर केंद्रीय मंत्रिमंडल एवं अजय सुरक्षा मंत्रालयों की समिति (सीसीएस) की बैठक की अध्यक्षता की।
 केबिनेट की बैठक में पीएम ने अपने अग्र्य सचिवोंगियों को भारत की इस जवाबदाई करवाई उसे अवगत कराया।
 जबकि सीसीएस की बैठक में उन्होंने औपरेक्षण सिस्टम के अलावा अजय तमाम सहयोगी कर्मियों को दुश्मन की हर हरकात पर पैनी निगाहा बनाए रखने के निर्देश दिए। गुप्तचर को सरकार में बाकी राजनीतिक दलों को इस अभियान के बारे में जानकारी देने के लिए सचदीनता बैठक में बुलाया है।

ऑपरेशन सिंदूर कोइनेन के मायने

सूत्रों ने बताया कि पहलनाम हमले के वक्त लश्कर तैयब के छा आतंकी संगठन ड रजिस्टर्ड फोर्स (टाइआएफ) के आतंकियों ने भारतीय महिलाओं की आंखों के सामने जिस बर्बरता के साथ उनके सुहाग को उजाड़ दिया, बतले के लिए ही भारत ने अमेरिका का नाम औपरेजने सिद्ध रखा। इसने कुले गार सीमा पार मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के पीछे मां दुर्गा के 9 मण्डों के साथ किए गए स्टीक गार के जरिए आतंकी ठिकानों में छिपे बैठक राख्शों के नाश को प्रदर्शित किया गया। साथ ही संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में विदेश सचिव के साथ दो महिला अधिकारियों को सम्मिलित करने के पीछे संदेश सेनाओं के बीबी की संयुक्तता, एकीकरण और महिला जागरूकता को अड्डा नजारा सके सामने पेश किया गया। इसके अलावा जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकियों ने पहलनाम हमले में भारतीय नागरिकों को उनका धर्म पूछकर गोली मारकर इस्लामिक कट्टरता और जिहादी प्रदर्शित दिखाई। उनके

शेष पृष्ठ 7 पर



इन 9 आतंकी कैंपो को बनाया निशाना

कनवल सोफिया कुरेशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिद्धर के जरिए पहला गन के पीडितों को न्याय मिला है। बीते तीन दशक से अंधेरी समझ में पांचों के लिए अपने आतंकी दांचों के जरिए आतंकियों को मर्ती, प्रशिक्षण और लांच पैड के जरिए उनकी भारत में घुसपैठ कराने की तयारी करताना रहा है। जिन आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है वो भी पाकिस्तान और पीओके में मौजूद हैं। इनमें पीओके में सेवई नाला (मुजफ्फराबाद), सयाझ बेवाला (मुजफ्फराबाद), गुलपुर (कोटली), अह्वास (कोटली), बरनाला (मिर्जर) शामिल हैं और पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकी ठिकानों में सियालकोट में सरजल, मेहमोना जोग्या, मुरीदके में मरकतन तेयझा और बहावलपुर में मौजूद मरकज सुमान शामिल हैं।

आधुनिक मिसाइलों से हमले कर बदला लिया

जब कैबिनेट की बैठक में मेजें थपथपाकर सेना के अदम्य साहस का किया गया अभिनंदन

हरिभूमि ब्यूरो ►► नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सेना की जमकर तारीफ की। कैबिनेट की बैठक के दौरान ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर भारतीय सेना की प्रधानमंत्री ने मंत्रियों के समक्ष तारीफ की तो सभी ने मेज थाथपाकर सेना की सफलता पर बधाई दी। पहलानाम में पाकिस्तानी आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने सीमा पर आतंकी ठिकाने को नेस्त्रनाबूद कर पाकिस्तान को आतंकवादी गतिविधियों को खत्म करने की खुली चुनौती दी। विदेश सेना के तड़के 1:44 बजे भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान अफ़ेक्ट

कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर किए गए आधुनिक मिसाइलों से हमले कर बदला लिया। पीएम मोदी ने कैबिनेट की बैठक में कहा, ऑपरेशन सिंदूर देश के लिए एक वाकाल है। उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमता, समर्पण, और साहस की सराहना की। मोदी ने कैबिनेट को ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी दी और इसे आतंकवाद के खिलाफ भारत की निर्णायक कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन देश की एकता और संकल्प को दर्शाता है। मोदी न दोहराया, आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प हम पूरा करेंगे। उन्होंने सेना को इस ऑपरेशन के लिए बधाई दी और कहा कि यह **→ शेष पेज 7 पर**

बीआरओ के एक कार्यक्रम में दिए वर्चुअल संबोधन में बोले रक्षा मंत्री

भारत ने अपनी जमीन पर हुए हमले का दिया
जवाब, सशस्त्र बलों ने रचा इतिहास: राजनाथ

हरिभूमि ब्यूरो▶▶|नई दिल्ली

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि भारत की यह कार्रवाई उसकी अपनी जमीन पर किए गए हमले का जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए की गई है। जिसमें सशस्त्र बलों ने अद्भुत प्रारक्रम और शौर्य का परिचय देते हुए पाकिस्तान और उसके अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में



मौजूद आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। इस दौरान की गई सैन्य कार्रवाई में सशस्त्र बलों ने सटीकता, सावधानी और चेतनापूर्ण कार्रवाई कर इतिहास रच दिया है।

उन्होंने पीएम के नेतृत्व में सैन्य बलों द्वारा की गई इस कार्रवाई के लिए उष्ण की सराहना की। यह जानकारी रक्षा मंत्री ने सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा बुधवार को राजधानी में आयोजित गए 66वें स्थापना दिवस समारोह को वर्चुअली संबोधित करते हुए दी। इससे पहले उन्होंने बीते मंगलवार देर रात सीमा बलों द्वारा किए गए ऑपरेशन **▶▶शेष पेज 7 पर**

प्रतिबंधों के चलते घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित

आप हवाई यात्रा कर रहे हैं तो ध्यान दें 18
एयरपोर्ट से उड़ानें 10 तक बंद, 200 रद

हरिभूमि ब्यूरो ▶▶ नई दिल्ली

[illegible]

महेनजर उठाया गया है। इस दौरान सुरक्षा कारणों और हवाई क्षेत्र में प्रतिबंधों के चलते कई घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित हुई हैं। कुल मिलाकर 18 हवाई अड्डों पर उड़ान सेवाएं बुधवार **▶ शोष पेज 7 पर**

इन एयरपोर्ट से उड़ानें रहेंगी बंद

- जम्मू और कश्मीर: श्रीनगर, लेह, जम्मू
- पंजाब: अमृतसर, पठानकोट
- बिड़ड
- हिमाचल प्रदेश: धर्मशाला, शिमला
- राजस्थान: जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर
- गुजरात: भुज, जामनगर, राजकोट, पोरबंदर, कांझल
- चंडीगढ़: शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा
- उत्तर प्रदेश: वल्लिपुर, हिंडन एयर बेस
- दिल्ली: इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा - आंशिक रूप से प्रभावित, कुछ उड़ानें रद्द, कई में देरी

हरिभूमि ब्यूरो ▶▶ नई दिल्ली

केन्द्रीय गृह मंत्रां अमित शाह ने नई दिल्ली में भारत के सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों, पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी), और मुख्य सचिवों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की। यह बैठक भारत-पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते बैकवॉश, ऑपरेशन सिंगूर के तहत किये गये पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले, और भारतीय सेना के युद्धाभ्यास के संदर्भ में बुलाई गई थी। बैठक का मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना, ज़नून-व्यवस्था की स्थिति को समीक्षा करना, और युद्ध जैसे हालात में समन्वय सुनिश्चित करना था। गृह मंत्रालय में बुलाये गये



आकस्मिक बैठक की अध्यक्षता केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की जब कि जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों सहित जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज **▶▶ शोष पेज 7 पर**

आज होगी सर्वदलीय बैठक, कई बिंदुओं पर होगी चर्चा

गृहमंत्री ने सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मांगे सुझाव, मुख्य सचिवों डीजीपी को दिए आपात स्थिति से निपटने को तैयार रहने के निर्देश

अरब सागर में युद्धाभ्यास कर रही नौसेना

गृहमंत्री ने जानकारी दी कि भारतीय वायुसेना आज बुधवार और कल गुरुवार को राजस्थान के विरोधवादी क्षेत्रों (जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, पाली) में बड़े पैमाने पर हवाई युद्धभ्यास कर रही है। जिसमें नौसेना 7 से 7 मई तक अरब सागर में युद्धभ्यास कर रही है, जिसमें नाविक फायरिंग ड्रिल्स शामिल हैं। इन गतिविधियों के चलते सीमावर्ती राज्यों में सुरक्षा और संकेतक बढ़ाने की जरूरत है। देश के 244-259 सीमावर्ती राज्यों में सिविल डिफेंस कैंडल ड्राइल ऑपरेशन की जा रही है, जिसमें हवाई हमले के साधन, ब्लैकआउट, और शेल्टर ड्रिल शामिल हैं। सुरक्षा कारणों से जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, और अन्य उत्तरी राज्यों के 18 हवाई अड्डों पर उड़ान सेवाएं 10 मई 2025 को सुबह 5:29 बजे तक बंद की गई हैं। अतिरिक्त इन सीमावर्ती राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था को सीमाक्षी और सीमा सुरक्षा बल के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, और स्थानीय पुलिस के बीच समन्वय बढ़ाने के निर्देश दिए। हेलीऑप्टर और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान **→** शेष पृष्ठ पर।

संपति विवाद में रिश्तेदारों ने महिला पर किया हमला



नई दिल्ली। झिलमिल इलाके में एक महिला पर घर के घुसकर हमले का मामला सामने आया है। हमले का आरोप संपत्ति विवाद में रिश्तेदारों पर लगा है। शिकायत पर विवेक विहार पुलिस ने महिला की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मंजु शर्मा झिलमिल इलाके में रहती हैं। आरोप है कि मंगलवार सुबह करीब सात बजे उनकी बहन, उसकी बेटी, भाभी और भतीजा जबन उसके घर में घुस आये। वह करनाल में गत दिनों बिकी प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांगने लगे। इसी बीच गंगागर्मी शुरू हो गई और उसके साथ मारपीट की गई। जब तक महिला का पति घर पहुंचा सभी फरार हो गये। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

आरोपी जमानत लेकर हो गया था फरार

नाबालिग बेटी और पुत्रवधु का बलात्कारी ढाई साल बाद दबोचा

हरिभूमि न्यूज ►►नई दिल्ली

क्राइम ब्रांच की नॉर्दन रेंज 2, टीम ने नाबालिग बेटी और पुत्रवधु से बलात्कार के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी जमानत लेकर फरार हो गया था। अब इसे करीब ढाई साल बाद गिरफ्तार किया गया है। इसके खिलाफ एक केस पहाड़गंज और दूसरा अलीपुर थाने में दर्ज हुआ था।

पुलिस के अनुसार 51 वर्षीय आरोपी इन दोनों मामलों में भगौड़ा घोषित किया जा चुका था। पहाड़गंज थाने का केस वर्ष 2018 में सामने आया था। इसने अपने सभी बेटे की पत्नी के साथ बलात्कार किया था। पहाड़गंज थाने में धारा 376/343/323/506



आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसे केस में गिरफ्तार भी कर लिया गया था। लेकिन बाद में अदालत ने जमानत

दे दी। आरोपी अदालत के समक्ष पेश नहीं हो रहा था तो भगौड़ा घोषित हो गया था। अलीपुर थाने का मामला अगस्त 2022 का है।

किशोर के पेट और सिर में गोली मारी

हरिभूमि न्यूज ►►नई दिल्ली

गीता कॉलोनी इलाके में दो लोगों ने मंगलवार रात 17 वर्षीय नाबालिग पर फायरिंग कर दी। नाबालिग के पेट और सिर में गोली लगी है। घायल को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई गई है। अमान नामक आरोपी को एक नाबालिग के साथ पकड़ लिया गया है। इनसे वारदात में इस्तेमाल कट्टा भी बरामद हो गया है। शुरुआती पुलिसिया तपत्तीश में पता चला कि हमलावरों ने अपने दो दोस्तों की हत्या का बदला लेने के इरादे से वारदात को अंजाम दिया।

पुलिस के अनुसार नाबालिग अपने परिवार के साथ गीता कॉलोनी क्षेत्र में ही रहता है। वह मंगलवार रात करीब साढ़े आठ बजे रानी गार्डन में अपनी मौसी के घर मिलने के लिए गया था। सवा नौ बजे अपने दोस्त के साथ वापस लौट रहा था। रास्ते में दो लोगों ने उन्हें रोका और नाबालिग को गोलीयां मार दीं। वारदात के कुछ घंटे बाद पुलिस ने आरोपियों को रानी गार्डन इलाके से दबोच लिया। पुलिस पृष्ठताछ में इन्होंने बताया कि



ज्योति नगर में घर के बाहर फायरिंग से दहशत

नई दिल्ली। ज्योति नगर में पहले एक युवक को थपड़ मारा गया और बाद में उसके घर पर फायरिंग की गई। शिकारत के बाद पुलिस मामले की तपत्तीश में जुटी है। शुरुआती तपत्तीश में पता चला कि दो दोस्तों के बीच हुए झगड़े के बाद यह वारदात की गई है। पुलिस आसपास के इलाकों में लगे कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। मिली जानकारी के अनुसार अमित (28) नामक युवक कदमपुरी इलाके में रहता है। सोमवार देर रात वह दोस्त साहिल से मिलने पास की पार्किंग में गया था। साहिल के साथ तेलकम में रहने वाला जीशान भी आया था। साहिल और अमित के बीच बहसबाजी हो गई। इस पर जीशान ने अमित को थपड़ मार दिया। लेकिन साहिल ने दोनों में बीच बचाव कर दिया। इसके बाद सभी अपने अपने घर चले गये। रात करीब सवा 12 बजे अमित के घर के बाहर गोली चली। अमित ने बाहर आकर देखा तो जीशान पिस्टल छिपा रहा था। इसके बाद वह धमकी देकर चला गया। अमित ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन के बाद केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी है।

सितंबर 2024 में रानी गार्डन में दो सगे भाइयों शाहिद व इरशाद की गोलीयां मारकर हत्या की गई थी। दोनों इनके अच्छे दोस्त थे। शाहिद के किरायेदार के नाबालिग बेटे ने वारदात की थी। इरशाद की घर में

हत्या की गई थी। कुछ देर के बाद उसके भाई शाहिद की गली में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नाबालिग आरोपी को पकड़ बाल सुधार गृह भेजा गया था। कुछ दिनों पहले वह बाहर आया है।

अदिति कॉलेज में ‘उठो अहल्या’ का मंचन

हरिभूमि न्यूज ►►नई दिल्ली

दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध अदिति कॉलेज में मंगलवार को भारतीय सांस्कृतिक चेतना और स्त्री विमर्श पर आधारित नाट्य प्रस्तुति “उठो अहल्या” का भव्य मंचन हुआ, जो प्रख्यात साहित्यकार प्रो. सुरेंद्र दुबे द्वारा रचित मूल कृति पर आधारित था। इस नाटक का रूपांतरण, निर्देशन और प्रस्तुति प्रभज्योत सिंह ने किया गया, जो एक संवेदनशील और गहराई से जुड़े हुए युवा निर्देशक हैं। मंचन में अहल्या के पारंपरिक आख्यान को एक नई दृष्टि से प्रस्तुत किया गया, जहां वह केवल शापित और पत्थर बनी हुई स्त्री नहीं, बल्कि प्रभु श्रीराम के दिव्य और करुणामय स्पर्श से



■ पूरी छात्रा टीम ने प्रस्तुति को साकार किया

पुनर्जीवित होकर एक चेतन, जागरूक और सम्मानित नारी के रूप में पुनः खड़ी होती हैं। यह स्पर्श केवल देह को नहीं, बल्कि आत्मा और चेतना को भी जाग्रत करता है,

दिल्ली में 55 स्थानों पर सुरक्षा ‘मॉक ड्रिल’ के दौरान बजाए सायरन, लोगों को निकाला बाहर

हरिभूमि न्यूज ►►नई दिल्ली

दिल्ली में बुधवार को 55 स्थानों पर सुरक्षा ‘मॉक ड्रिल’ (सुरक्षा अभ्यास) की गई और इस दौरान तेज आवाज में बजते सायरन, सुरक्षित स्थानों की ओर भागते लोग, स्ट्रचर पर घायल लोगों को ले जाये जाने जैसे कुछ दृश्य दिखे। राष्ट्रव्यापी ‘ऑपरेशन अभ्यास’ के तहत हवाई हमलों, एक साथ कई स्थानों पर आग लगने की घटनाओं और खोज व बचाव अभियान जैसे विभिन्न परिदृश्यों का किस तरह सामना करना है, इसको दर्शाते हुए ‘मॉक ड्रिल’ की गई। कई स्थानों पर पीसीआर वैन और



दमकल गाड़ियां तैनात की गईं, जबकि सुरक्षा कर्मियों और नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की भारी तैनाती की गई। खान मार्केट में, सायरन बजाए गए और लोगों को निकासी अभ्यास के तहत भागने के लिए कहा गया। चांदनी चौक में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों, कर्मियों और एनसीसी कैडेट की मौजूदगी में ‘मॉक ड्रिल’ की गई। टाउन

हॉल के पास चांदनी चौक में निकासी अभ्यास शुरू होते ही बाजार क्षेत्र में सायरन बजने लगे, जिससे लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। बचाव कार्य शुरू करने का संकेत देते हुए दूसरा सायरन बजाया गया। इस दौरान स्वयंसेवकों को घायलों को बचाने जबकि लोगों से शांत रहने और घायलों की मदद करने का अभ्यास कराया गया। दिल्ली अग्निसेवा की क्रेन का इस्तेमाल ऊंची इमारतों तक पहुंचने और फंसे हुए लोगों को निकालने को दर्शाया गया। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सायरन बजाया गया। चिकित्सकों का

एक दल और कई एम्बुलेंस के साथ दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। एनडीएमसी बिल्डिंग में अलार्म सायरन बजाया गया और कर्मचारियों को बाहर निकालकर बेसमेंट में ले जाया गया। आरबीआई बिल्डिंग में भी ‘मॉक ड्रिल’ की गई जिसमें कांच की खिड़कियों से दूर रहने और दोनों हाथों से सिर ढककर छिपने के लिए सुरक्षित जगह खोजने के निर्देश दिए गए। यह अभ्यास मंगलवार देर रात को भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में किए गए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद किया गया। वहीं दिल्ली

के सरकार और प्राइवेट स्कूलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया।

दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (डीडीएमए) द्वारा दिल्ली में आयोजित की गई मॉक ड्रिल में दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने हिस्सा लिया। डीएमआरसी के अनुसार मेट्रो नेटवर्क के विभिन्न स्टेशनों पर आयोजन किया गया। डीएमआरसी ने बताया कि इनमें रोहिणी सेक्टर-18-19, राजीव चौक, द्वारका सेक्टर-10, खान मार्केट, विनोबापुरी, साउथ एक्सटेंशन, बॉटनिकल गार्डन, ग्रेटर कैलाश और एयरपोर्ट-टी-3 स्टेशनों (कुल-9 स्टेशन) पर मॉक ड्रिल शामिल है।

जूलर ने पत्नी समेत चार पर किया फरसे से वार

हरिभूमि न्यूज ►►नई दिल्ली

शाहदरा के राम नगर में एक जूलर ने अपनी पत्नी समेत चार लोगों पर फरसे से हमला कर दिया। आरोप है कि जूलर का पत्नी से विवाद चल रहा था और उसके घरवाले बाचचीत करने पहुंचे थे। लेकिन इस दौरान जूलर आपा खो बैठा और इस हमले को अंजाम दिया। मानसरोवर पार्क थाना पुलिस महिला के बयान पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर आगे की छानबीन कर रही है।

पुलिस के अनुसार 33 वर्षीय सोनम वर्मा शाहदरा के राम नगर में रहती है। 2012 में सोनम की शादी इलाके के ही अमन वर्मा से हुई थी। दंपति के दो बेटे हैं। अमन घर के ग्राउंड फ्लोर पर ही जूलरी शॉप चलाता है। पत्नी सोनम का आरोप है कि शादी के बाद से ही वह दहेज प्रताड़ना का शिकार है। अक्सर उसके साथ मारपीट होती है। कुछ दिन पहले सोनम ने अपने परिजनों को मारपीट और जान से मारने की धमकी के बारे में बताया। मंगलवार



दोपहर सोनम के दो भाई राहुल, पंकल, मां मीना वर्मा, ताई लज्जा वर्मा सोनम के घर आये थे। उनके साथ ड्राइवर मोहित शर्मा भी था। अमन ने सभी को अपनी दुकान में बुला लिया। बातचीत के बीच अमन आग बबूला हो गया और बाहर जाकर फरसा लेकर आया। उसने राहुल की गर्दन व पेट पर हमला कर दिया। इसके बाद उसने पंकल और सोनम पर भी वार किया। दोनों के हाथों में चोट आई है। मोहित पर भी हमला किया गया। बीच बचाव में अमन के पिता भी घायल हो गये। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। सभी का मेडिकल करवाया और अमन के खिलाफ नामजद केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

महापौर सम्मेलन कक्ष : एलसीडी के पीछे छिप गए हैं महापौरों के चित्र

दया राम ►►नई दिल्ली

दिल्ली नगर निगम में महापौर पद प्राप्त करने और मुख्यालय स्थित महापौर कार्यालय के साथ बने सम्मेलन कक्ष में अपनी तस्वीर (चित्र) लगवाने के लिए नेताओं को अनकों अथक प्रयास करने पड़ते हैं और तब कहीं जाकर महापौर सम्मेलन कक्ष में तस्वीर लग पाती है। लेकिन इस डिजिटल युग के चलते अब सम्मेलन कक्ष के चारों कोनों में बड़ी चार एलसीडी टीवी लग चुकी हैं जिनके चलते महापौरों की तस्वीरें अब नीचे छिप कर रह गई हैं। बता दें कि सम्मेलन कक्ष में प्रवेश द्वार की तरफ से देखने पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम में महापौर रहें जय प्रकाश (जेपी), राजा इकबाल सिंह की तस्वीरें नहीं दिखती हैं। प्रवेश द्वार के बाईं तरफ जयश्री पंवार एवं अशोक कुमार जैन और प्रवेश द्वार के दाईं तरफ लगी एलसीडी के पीछे योगध्यान आहूजा और डॉ अनिता आर्य की तस्वीर नजर नहीं आती हैं। बता दें कि सम्मेलन कक्ष को निगम कर्मियों, यूनियन पदाधिकारियों, अतिथियों आदि से मुलाकात करने और प्रेसवाताएं आयोजित करने में प्रयोग किया जाता है। जबकि एलसीडी के पीछे छिपी तस्वीरें आसानी से नहीं दिख रही है कि कौन क्या महापौर रहा है।

वहीं, बता दें प्रवेश द्वार से अंदर आने के बाद दाएं तरफ सबसे पहली महापौर रही अरूणा आसफ अली की तस्वीर शुरू होती है जिनका कार्यकाल वर्ष



■ कक्ष में निगम कर्मियों, अतिथियों से होती है मुलाकात

1958-1959 तक रहा और इसके बाद त्रिलोक चंद शर्मा (1959-1960) का कार्यकाल रहा और इसी तरफ से दाईं तरफ दीवार पर सभी महापौरों की तस्वीरें शुरू हो जाती है और आगे की तरफ बढ़ते हुए अंतिम दो तस्वीरें महापौर जय प्रकाश जेपी (2020-2021) और उत्तरी दिल्ली नगर निगम में अंतिम महापौर रहे सरदार राजा इकबाल सिंह (2021-2022) की है। इसके बाद निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और यहां दीवार पर जगह कम होने के चलते आम आदमी पार्टी की महापौर डॉ. शैली ओबराय (22 फरवरी 2023 से 14 नवंबर 2024) और महेश खींची (14 नवंबर 2024 से 25 अप्रैल 2025) की तस्वीर, पहली महापौर रही अरूणा आसफ अली की तस्वीर के नीचे लगी हुई हैं।

आईआईटी कानपुर को कार्यान्वयन और मूल्यांकन एजेंसी के रूप में किया नियुक्त

दिल्ली कैबिनेट ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कृत्रिम वर्षा के ट्रायल को दी मंजूरी

हरिभूमि न्यूज ►►नई दिल्ली

दिल्ली में वायु प्रदूषण को कृत्रिम बारिश से कम किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित दिल्ली कैबिनेट की बैठक में दिल्ली में पांच कृत्रिम बारिश कराने के ट्रायल को मंजूरी दी गई। इस पूरी परियोजना के लए 3.21 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। कैबिनेट बैठक के बाद पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि प्रत्येक क्लाउड-सीडिंग परीक्षण पर 55 लाख रुपए खर्च होंगे, जिसमें पांच परीक्षणों के लिए कुल अनुमानित व्यय 2.75 करोड़ रुपए होगा। इसके अतिरिक्त, विमान अंशंकन,



रासायनिक भंडारण, रसद और अन्य प्रारंभिक व्यवस्थाओं को कवर करने के लिए 66 लाख रुपए की लागत आएगी। कुल परियोजना परिव्यय 3.21 करोड़ रुपए है।

सिरसा ने कहा कि सरकार इस ट्रायल के लिए पहले नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन

मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और अन्य सहित 13 एजेंसियों से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करेगी। सिरसा ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया। हम जल्द ही इन परीक्षणों को आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति के दौरान आकस्मिक विकल्प के रूप में कृत्रिम वर्षा की खोज कर रहे हैं। यह पहल हमारे चले रहे प्रयासों का पूरक है, जिसमें आई-आधारित निगरानी और प्रदूषण हॉट स्पॉट पर 24 घंटे निगरानी शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि वायु प्रदूषण के खिलाफ

हमारी लड़ाई में प्रौद्योगिकी को सबसे आगे होना चाहिए। रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली के लोगों को स्वच्छ हवा देने के लिए प्रतिबद्ध है, और यह परियोजना उस दिशा में एक साहसिक और वैज्ञानिक कदम का प्रतिनिधित्व करती है।

पर्यावरण मंत्री सिरसा ने बताया कि इस परियोजना को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा, जो योजना, विमान परिनियोजन, रासायनिक फैलाव, वैज्ञानिक मॉडलिंग और परिचालन रसद की देखरेख करेगा। इस पहल के लिए दिल्ली सरकार द्वारा सीधे आईआईटी कानपुर को धनराशि हस्तांतरित की जाएगी।

पहला ट्रायल मई-जून 2025 में

मंत्री सिरसा ने बताया कि पहला ट्रायल मई-जून 2025 के अंत में, मंजूरी के अधीन निर्धारित है, और यह मुख्य रूप से दिल्ली के बाहरी इलाकों में लगभग 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करेगा। इस चरण में कुल पांच ट्रायल किए जाएंगे। ट्रायल के बाद वैज्ञानिक कृत्रिम वर्षा की प्रभावशीलता और पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करेंगे।

क्या है कृत्रिम वर्षा

कृत्रिम वर्षा एक वैज्ञानिक मौसम संशोधन तकनीक है जिसमें नमी वाले बादलों में सिल्टर आयोडाइड जैसे एजेंट फैलाए जाते हैं ताकि वर्षा हो सके। दिल्ली के संदर्भ में, इसे उच्च-धुंध और कम-वर्षा अवधि के दौरान वायु जनित प्रदूषकों को सांद्रता को कम करने के संभावित समाधान के रूप में खोजा जा रहा है।

महापौर ने एमसीडी 311 और मेयर हेलपलाइन नंबर किया जारी



नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम ने आगामी मानसून सीजन को देखते हुए अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए बुधवार को

दिल्ली नगर निगम के महापौर राजा इकबाल सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो के माध्यम से जलभराव, नालियों की सफाई के लिए एमसीडी 311 और मेयर हेलपलाइन नंबर 96430-96430 जारी किया है। इसके लिए दिल्ली के नागरिक अपनी शिकायतें साझा कर सकते हैं और दिल्ली को बेहतर बनाने में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। महापौर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि स्वच्छ दिल्ली, हम सभी की जिम्मेदारी है। स्वच्छता केवल एक अभियान नहीं, बल्कि हमारे समाज और देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने दिल्लीवासियों से अपील करते हुए कहा कि वे स्वच्छता को अपनी आदत बनाएं और इसे अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाएं। एक साफ, सुंदर और स्वस्थ दिल्ली का निर्माण हमारे सामूहिक प्रयासों पर निर्भर करता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में हम इस अभियान को नई ऊंचाईयां तक पहुंचाने के लिए संकल्पित हैं।

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 Cr.P.C देखिए
मेरे सम्मक्ष परिवारद किया नाम: राजू, पुत्र: निज़ाम शेख, निवासी: टी-14, बी निज़ाम नगर, बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन, नई दिल्ली ने अपराध किया है (या किए जाने का संदेह है) FIR No.127/2020 Dt.14.06.2020 U/S 380/454/411/34 IPC के तहत एक मामला थााना हज़रत निज़ामुद्दीन, नई दिल्ली में दर्ज किया गया है और उसके बाद जारी गिरफ्तारी वारंट को यह कहते हुए वापस कर दिया गया है कि अभियुक्त राजू नहीं मिला या मेरी संतुष्टि के लिए दिखाला गया है कि अभियुक्त राजू फरार हो गया है (या उक्त वारंट के तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहे हैं)। इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा कि FIR No.127/2020 Dt.14.06.2020 U/S 380/454/411/34 IPC, थााना हज़रत निज़ामुद्दीन, नई दिल्ली के अभियुक्त राजू को उक्त शिकायत का जवाब देने के लिए दिनांक 10.06.2025 को या उससे पहले अदालत के सम्मक्ष उपस्थित होना आवश्यक है।

आदेशानुसार कानूतिक तपारिया जेएमएफसी-03, कमरा नंबर 512, दक्षिण-पूर्व जिला, साकेत कोर्ट, नई दिल्ली

DP/5712/SE/2025 (अदालती मामला)

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 Cr.P.C देखिए
मेरे सम्मक्ष परिवारद किया नाम: 1. समीर, पुत्र: मोहम्मद मोना, निवासी: मकान नं. 2890/2891, ई-ब्लॉक, जेजे कॉलोनी, बवाना, नई दिल्ली। 2 नाम: मोहसिन, पुत्र: इदरीश, निवासी: ए-1084, जेजे कॉलोनी, बवाना, दिल्ली और मकान नं. 820, ए-ब्लॉक, जेजे कॉलोनी, बवाना, दिल्ली ने अपराध किया है (या किए जाने का संदेह है) FIR No.06/22 U/S 379/34 IPC के तहत एक मामला थााना सनलाइट कॉलोनी, दिल्ली में दर्ज किया गया है और उसके बाद जारी गिरफ्तारी वारंट को यह कहते हुए वापस कर दिया गया है कि अभियुक्त समीर और मोहसिन नहीं मिले या मेरी संतुष्टि के लिए दिखाला गया है कि अभियुक्त समीर और मोहसिन फरार हो गये हैं (या उक्त वारंट के तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहे हैं)।

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा कि FIR No.06/22 U/S 379/34 IPC, थााना सनलाइट कॉलोनी, दिल्ली के अभियुक्त समीर और मोहसिन को उक्त शिकायत का जवाब देने के लिए दिनांक 10.06.2025 को या उससे पहले अदालत के सम्मक्ष उपस्थित होना आवश्यक है।

आदेशानुसार सुश्री अदिति राव एनडी, जे.एम.एफ.सी.-07, दक्षिण पूर्व जिला, कमरा नं.508 साकेत कोर्ट परिसर, नई दिल्ली

DP/5632/SE/2025 (अदालती मामला)

ALLEN

डॉक्टर बनने के सपने
को करें साकार
ALLEN के साथ

Pre-Medical प्रवेश परीक्षाओं में
पिछले 15 वर्षों में 13 बार AIR 1

ALLEN NEET (UG)
2024 Results
validated by

Official result validator



Shape the future
with confidence



AIIMS (MBBS)

660 ALLENites secured seats
out of 2207 in AIIMS 2024

GMCS (MBBS)

10450+ ALLENites secured their seat in
Govt. Medical Colleges (2024)

NEET (UG) 2024: ALLEN Delhi NCR के साथ, पूरा हुआ Govt. Medical College का सपना

Rishika Aggarwal
1-year classroom

AIIMS,
Delhi

DELHI GIRL TOPPER

Gunjan Aggarwal
1-year classroom

MAMC,
Delhi

Bhavesh Kumawat
1-year classroom

VMMC,
Delhi

Dhiraj Falodia
1-year classroom

VMMC,
Delhi

Md Fahad Alam
1-year classroom

VMMC,
Delhi

Rohit Rawat
1-year classroom

VMMC,
Delhi

Bhupender Prasad
1-year classroom

UCMS,
Delhi

Shreyash Sharma
1-year classroom

UCMS,
Delhi

Tushar Sharma
1-year classroom

UCMS,
Delhi

Aliya Aslam
1-year classroom

LHMC,
Delhi

Mahima Maria N.
1-year classroom

LHMC,
Delhi

Arjun Sharma
1-year classroom

AIIMS,
Rishikesh

Kanishka Bhadra
1-year classroom

AIIMS,
Gorakhpur

Priyanshu Yadav
1-year classroom

ABVIMS &
RML, Delhi

Yash
1-year classroom

ABVIMS &
RML, Delhi

Yash Sharma
1-year classroom

ABVIMS &
RML, Delhi

Kanisha Mirg
1-year classroom

GIMS,
Geater Noida

Lakshay Goyal
1-year classroom

KCGMC,
Haryana

Priyanka Garal
1-year classroom

PGIMS, UHS,
Rohtak

Ankit Gupta
1-year classroom

IGIMS,
Patna

Bhavana Kumari
1-year classroom

PMC,
Patna

Amartyanjana Kr.
1-year classroom

DMC,
Lehar Saraz

and many more...

ADMISSIONS OPEN AT
DELHI NCR

Get up to 90% Scholarship for NEET 2026 Leader
Courses based on your NEET-UG 2025 Performance

CLASS 11th

Nurture Course
JEE (Main+Adv.): 8 MAY
NEET (UG): 8 MAY

12th PASS

Leader Course
JEE (Main+Adv.): 27 MAY
NEET (UG): 13 MAY

CLASS 12th

Enthusiast Course
JEE (Main+Adv.): 8 MAY
NEET (UG): 8 MAY

CLASS 8th to 10th

Pre-Nurture &
Career Foundation
8th to 10th: 8 MAY

SIGN-UP FOR

ASAT
(Scholarship Test)

GET UP TO 90%
SCHOLARSHIP*



TEST DATES
11 & 18 MAY

For scholarship test dates & course start dates visit allen.ac.in/delhi or nearest center.

For direct admission visit your nearest ALLEN center.

*Subject to the scholarship rules and the T&Cs.

ALLEN Delhi NCR

95136 85900 allen.ac.in/delhi

ALLEN Kota Center

0744-3556677 allen.ac.in

Disclaimer: We provide an academic ecosystem and environment to prepare students for their target examinations. Studying in a coaching institute does not guarantee selection for the examination. Selection depends on preparation, admission seats in competitive exam and the number of applicants appearing. All the students mentioned are part of paid courses.

खबर संक्षेप

350 ग्राम गांजा सहित आरोपी को दबोचा

फरीदाबाद। क्राइम ब्रांच सेक्टर-48 की टीम ने आरोपी जितेंद्र को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 6 मई को क्राइम ब्रांच सेक्टर-48 की टीम गस्त पर थी। गुप्त सूत्रों से एक व्यक्ति द्वारा गांजा बेचने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर कार्रवाई करते हुए आरोपी जितेंद्र वासी उत्तम नगर, फरीदाबाद को काबू करके 350 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। आरोपी के विरुद्ध थाना डबुआ फरीदाबाद में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है।

दुष्कर्म के मामले में आरोपी गिरफ्तार

फरीदाबाद। थाना खेडीपुल क्षेत्र के अंतर्गत नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी राहुल को गिरफ्तार किया गया है। बीते 22 मार्च को एक महिला ने थाना खेडीपुल मे दी अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि 18 मार्च को उसकी नाबालिग बेटी अपनी सहेली के घर मिलने गई थी, जहाँ पहुंचने पर पता चला कि उसकी सहेली दृशुशन पढ़ने गई हुई है। घर पर सहेली को भाई था, थोड़ी देर बाद सहेली के भाई के दो दोस्त घर पर आए।

टॉस्क देकर युवती से 3.38 लाख ठगे

गुरुग्राम। साइबर क्राइम मानेसर एरिया में टॉस्क देकर युवती से 3,38,450 रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। पुलिस को दी शिकायत में गुरुग्राम के सेक्टर-81 में रहने वाली अर्पणा यादव ने कहा कि बीती 29 अप्रैल को उनके पास व्हाट्सअप पर एक मैसेज आया। जिसमें सुभाषमिता नामक महिला ने उसे वर्क फ्रॉम होम के तहत टॉस्क देकर रुपए कमाने की बात कही। अर्पणा की सहमति पर उसे एक लिंक भेजा गया। जिस पर क्लिक करने पर रजिस्ट्रेशन किया गया और उसे यूजर आईडी दी गई और टेलीग्राम ग्रुप के साथ जोड़ा गया। इसके बाद टॉस्क पूरा करने पर अर्पणा को कमिशन के तौर पर कुछ राशि दी गई।

मामले में 4 आरोपी पहले गिरफ्तार किए जा चुके

हरिभूमि न्यूज़►►फरीदाबाद

थाना साइबर बल्लभगढ़ की पुलिस टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल होना बतलाकर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी साइबर थाना बल्लभगढ़ की टीम ने गिरफ्तार किया है।

सेक्टर-9 में रहने वाले एक व्यक्ति ने थाना साइबर बल्लभगढ़ में दी गई अपनी शिकायत में बताया कि 17 दिसंबर को उसके पास एक फोन आया जिसने बतलाया कि ट्राई से बोल रहा हूं आपके पास दो मोबाइल नंबर हैं, आपका एक मोबाइल नंबर मुंबई के पते पर है जो यह नम्बर आप से संबंधित नहीं है। इस नंबर में आपके आधार कार्ड नंबर का दुरुपयोग किया गया है। इसके उपरांत उसने शिकायतकर्ता को मुंबई पुलिस स्टेशन के एक मोबाइल नंबर से उप निरीक्षक से बात करने को कहा, इसके उपरांत

आरोपी ने लाखों वसूलने के बाद अश्लील फोटो व वीडियो वायरल करने की दी धमकी

लव जिहाद मामला: नशीला पेय देकर युवती से किया दुष्कर्म

हरिभूमि न्यूज़►►गुरुग्राम

सोहना शहर एरिया में लव जेहाद का मामला सामने आया है। आरोपी मुस्लिम युवक ने अपनी पहचान छुपाकर युवती को पहले नशीला पेय देकर उसके साथ रेप किया। उसके बाद शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाता रहा। यहीं नहीं युवती का तीन बार गर्भपात भी कराया गया और उसके साथ अस्पताल खोलने के नाम लाखों रुपए वसूल गए। युवती द्वारा अपने रुपए वापिस मांगने व शादी की बात पर आरोपी उसके अश्लील फोटो व वीडियो वायरल करने व जान से मारने की धमकी दे रहा है।

शिकायत मिलने पर पुलिस ने पुलिस ने आरोपी सहित छह पर केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। पुलिस को दी शिकायत में युवती ने

किसी और बहन का सिंदूर ना उजड़े, इसके लिए आतंक का खात्मा जरूरी: हिमांशी

धर्मेद कौशिक►►गुरुग्राम

पहलगाम आतंकी हमले में शादी के छह दिन बाद पति लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को खोने वाली हिमांशी स्वामी ने सेना के ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि उसकी तरह किसी और बहन का सिंदूर ना उजड़े, इसके लिए आतंक का खात्मा होना जरूरी है। हिमांशी ने कहा कि जो चला गया, वह वापस नहीं लौट सकता, लेकिन 26 परिवारों को उजाड़ने वालों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। यह कार्रवाई उनके लिए थोड़ी संतोष देने वाली है और उनके पति को शांति जरूर मिली होगी। उनका कहना है कि अब आतंक का खात्मा होना चाहिए, ताकि किसी और भारतवासी को इस तरह का दर्द सहन ना करना पड़े। गुरुग्राम के सेक्टर-47 में रहने वाली हिमांशी कहती हैं कि आतंक को देश और दुनिया से पूरी तरह खत्म करने की जरूरत है। ऑपरेशन सिंदूर में दो महिला अधिकारियों के शामिल करने पर हिमांशी कहती हैं कि एक लड़की ही लड़की का दर्द को अच्छी तरह



सायरन के साथ ठीक 4 बजे शुरू हुआ मॉक ड्रिल, लोगों को किया जागरूक

प्रशासन की ओर से फरीदाबाद जिला के 11 स्थानों पर हुआ नागरिक सुरक्षा अभ्यास

नागरिक सुरक्षा तंत्र और आपातकालीन प्रतिक्रिया का परीक्षण और सुदृढीकरण है। नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का उद्देश्य, शाम 7.50 से 8 बजे तक एयर स्ट्राइक के मद्देनजर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया।

हरिभूमि न्यूज़►►फरीदाबाद

राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा अभ्यास के तहत बुधवार की दोपहर बाद फरीदाबाद जिला में एयर स्ट्राइक के मद्देनजर मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। साइरन बजने के साथ ठीक 4 बजे ऑपरेशन अभ्यास शुरू हुआ। सेक्टर-12 स्थित हेलीपैड ग्राउंड से रेस्क्यू टीम अपने अपने निर्धारित स्थल के लिए लोगों की मदद के लिए रवाना हुई, इसमें एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, बम निरोधक दस्ता व आपदा मित्र सहित अन्य राहत दल शामिल रहे। जिला में विभिन्न 11 स्थानों पर मॉक ड्रिल हुई। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन एवं डीसी विक्रम सिंह के नेतृत्व में जिला में योजनाबद्ध तरीके से नागरिक सुरक्षा अभ्यास किया गया जिसमें आपदा की स्थिति में हुई जान माल की रक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई। डीसी एवं चेयरमैन विक्रम सिंह ने बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा अभ्यास के तहत फरीदाबाद जिला में नागरिक सुरक्षा तंत्र और आपातकालीन प्रतिक्रिया का परीक्षण और सुदृढीकरण करने के उद्देश्य से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल में सांय 4 बजे साइरन के साथ सभी चिह्नहित स्थानों पर अभ्यास शुरू हुआ और जिन भवनों में प्रथम व द्वितीय तल पर लोग मौजूद थे वे तुरंत प्रभाव से भूतल पर आ गए और स्वयं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए। जहां कहीं भी आपदा की स्थिति के दौरान लोग ऊपरी तलों पर फंस गए थे उन्हें सुरक्षित तरीके से फायर ब्रिगेड कर्मियों व आपदा मित्रों द्वारा नीचे उतारा गया और इलाज के लिए निकटवर्ती अस्पताल में पहुंचाया गया। डीसी ने बताया



कि शाम 4 बजे हवाई हमले की चेतावनी वाला सायरन बजाकर सरकारी विभागों और स्वयंसेवकों सहित सभी हितधारकों को शामिल करते हुए महत्वपूर्ण और रणनीतिक स्थानों पर मॉक ड्रिल ऑपरेशन शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि इस मॉक ड्रिल के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया कि ऐसी स्थिति आने पर आश्रय के रूप में एक सुरक्षित आंतरिक कमरे या तहखाने की पहचान करें। फेमिली ड्रिल्स का अभ्यास करें, लाइट बंद करें, 1.2 मिन्ट के भीतर सुरक्षित क्षेत्र में इकट्ठा हों। उन्होंने बताया कि लोगों में जागरूकता लाने के लिए कंट्रोल रूम सचिवालय में बनाया गया। मॉक ड्रिल के दौरान उक्त कंट्रोल रूम में आई सूचना के आधार पर पूरा अभ्यास किया गया। डीसी ने बताया कि यह मॉक ड्रिल आपातकालीन स्थिति में क्या करें और क्या न करें और क्या-क्या सावधानियां बरतने के उद्देश्य से करवाई गई है। उन्होंने आमजन से आह्वान किया वे अपने क्षेत्र में होने वाली किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट तुरंत पुलिस और स्थानीय अधिकारियों को दें।

गाजियाबाद के 10 स्कूलों में मॉक ड्रिल: छात्रों को सिखाए गए आपदा प्रबंधन के उपाय

गाजियाबाद। नागरिक सुरक्षा और उत्तर प्रदेश प्रशासन के संयुक्त प्रयास से गाजियाबाद के 10 स्कूलों में व्यापक स्तर पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। छात्रों और नागरिकों को आपातकालीन स्थिति में सुरक्षा और बचाव के प्रभावी तरीकों से अवगत करवाया गया। जिलाधिकारी दीपक मीना कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। चंद्रपुरी स्थित एमबी गवर्नर्स इंटर कॉलेज में सिविल डिफेंस व अन्य विभागों ने मॉकड्रिल का प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि इस



अभ्यास का मुख्य उद्देश्य बच्चों को न केवल सैद्धांतिक बल्कि व्यावहारिक प्रशिक्षण देना था ताकि वे किसी भी आपात स्थिति में घबरार नहीं



और आवश्यक बचाव उपायों को अपनाकर स्वयं एवं दूसरों की रक्षा कर सकें। इस अभियान के अंतर्गत छात्रों को बताया गया

कि हवाई हमले या भूकंप जैसी आपात स्थिति में सबसे पहले 'हेड डाउन' पोजिशन अपनानी चाहिए — यानी उट्टा लेटना, कान, नाक और आंखों को उंगलियों से ढकना, जिससे बाहरी प्रभाव से सुरक्षा मिल सके। इस दौरान सेक्टर प्रोटेक्टॉस को विस्तार से समझाया गया। इस मौके पर सिविल डिफेंस के नियंत्रक ललित जायसवाल, अपर जिलाधिकारी गंभीर सिंह, अपर नगर आयुक्त अरुण यादव, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. अखिलेश मोहन के अलावा गुलाम नबी आदि उपस्थित थे।

अवैध हथियार रखने वालों पर प्रहार, 3 आरोपी पकड़ाए

हरिभूमि न्यूज़►►फरीदाबाद

फरीदाबाद पुलिस की अपराध शाखाओं द्वारा अवैध हथियार रखने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में कार्यवाही करते हुए अपराध शाखा बॉर्डर की टीम ने विककी अपराध शाखा एवीटीएस की टीम ने साहिल व अपराध शाखा सेक्टर 48 की टीम ने विशाल को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हैं बताया कि 6 मई को अपराध शाखा बॉर्डर की टीम ने अपने गुप्त सूत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर विकी निवासी राजीव कॉलोनी सेक्टर 56 को बाईपास रोड सेक्टर 37 से एक देसी कट्टा सहित गिरफ्तार किया है, पुछताछ पर ज्ञात हुआ कि आरोपी नशा करने का आदी है तथा देसी कट्टा उसे राजीव कॉलोनी मे ही पड़ा मिला था जिसने

अपने पास रख लिया था। आरोपी का पूर्व में भी अपराधिक रिकॉर्ड है। अपराध शाखा एवीटीएस की टीम ने गुप्त सूत्रों से प्राप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए 6 मई को साहिल निवासी फतेहपुर बेरी दिल्ली को सिकरोना रोड से एक देशी कट्टा व एक कारतूस सहित गिरफ्तार किया है। वह देसी कट्टा व कारतूस को दिल्ली मे किसी अंजान व्यक्ति से 3500 रुपए मे लेकर आया था। वहीं अपराध शाखा सेक्टर 48 टीम ने गुप्त सूत्रों से प्राप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए 6 मई को विशाल निवासी सेक्टर 48 को सेक्टर 40 से कट्टा सहित गिरफ्तार किया है, उसे यह देसी कट्टा मोहना गाँव में नहर पर पड़ा मिला था। तीनों आरोपियों को पूछताछ के बाद माननीय अदालत में पेश कर जेल भेजा गया है।

से समझ सकती है। मेरी तो अभी शादी हुई थी और आतंकियों ने मेरी लाइफ एक सैकंड में ले ली। लेकिन महिलाओं को इस तरह के ऑपरेशन में शामिल करना अच्छा इनिशिएटिव है। भविष्य में भी महिलाओं को इस तरह के ऑपरेशन में शामिल करना चाहिए। हिमांशी ने कहा कि वे किसी की सोच नहीं बदल सकती। उनका उद्देश्य किसी मासूम के साथ गलत नहीं किए जाने को लेकर था। लेकिन जो लोग नफरत फैलाते हैं, उन्हें इस देश में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। सेना द्वारा जिस की कार्रवाई की गई वे ऐसा ही चाहती थी कि आतंकियों पर ही कार्रवाई हो। सेना ने ठीक उसी तरह की कार्रवाई की है, इसके लिए वे सरकार की आभारी हैं। लेकिन किसी बहन का उसकी तरह सिंदूर ना उजड़े, इसके लिए आतंक का खात्मा किया जाए और इस तरह का ऑपरेशन सिंदूर चलाने की जरूरत ना पड़े। वहीं पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए। हिमांशी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि जब उनके पति को गोली मारी गई तो उन्होंने तुरंत आतंकियों से कहा था कि हमने आपके साथ गलत नहीं किया तो ये सब क्यों कर रहे हो, लेकिन जिनके अंदर आत्मा ही नहीं हो तो वे क्या जवाब देंगे।

निगम निदेशक श्रीनिवास ने समस्याओं का भी यथाशीघ्र समाधान करने का आश्वासन दिया

लघु उद्योग भारती द्वारा बिजली आपूर्ति से जुड़े मुद्दों पर की गई अहम बैठक



हरिभूमि न्यूज़►►फरीदाबाद

लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधि मंडल ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक ए श्रीनिवास से उद्योगों से जुड़ी बिजली समस्याओं को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। इस चर्चा में प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़े प्रतिनिधियों ने भाग लिया। डीएलएफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन अध्यक्ष श्रीराम अग्रवाल ने बताया कि इस विशेष मीटिंग में हरियाणा सहित फरीदाबाद में उद्योगों को बिजली आपूर्ति संबंधित आवश्यकताओं को लेकर चर्चा हुई। डीएचबीवीएन प्रबंध निदेशक ए. श्रीनिवास ने उध्मियों को बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने एवं अन्य समस्याओं का भी

यथाशीघ्र समाधान करने का हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। बैठक में यह मांग प्रमुखता से रखी गई कि निधात में हो रही वृद्धि और उत्पादन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों को चौबीसों घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति दी जाए। हाल में बिजली दरों में की गई बढ़ोतरी, बिजली खरीद लागत में हुई वृद्धि के कारण की गई है। बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी केवल पांच से छह प्रतिशत है, जिसे बढ़ाने से भविष्य में उत्पादन लागत कम हो सकती है। प्रतिनिधि मंडल को जानकारी दी गई कि उद्योगों की बिजली से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए एक एकल खिड़की प्रणाली की स्थापना की जा रही है।

जेजेपी ने प्रदीप चौधरी को पुनःबनाया फरीदाबाद जिलाध्यक्ष

फरीदाबाद। हरियाणा प्रदेश में जिला अध्यक्ष के संरतोज का विस्तार करते हुए जननायक जनता पार्टी ने बुधवार को फरीदाबाद में जननायक जनता पार्टी के जनाधार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रदीप चौधरी को दूसरी बार जजपा की कमान सौंपी गई है। प्रदीप चौधरी ने अपनी इस विज्ति पर जजपा के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अजय सिंह चौटाला, पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दिवंगवय सिंह चौटाला, प्रदेश अध्यक्ष बुजमोहन शर्मा और पार्टी के सभी कार्य नेताओं का आभार जताया है। प्रदीप चौधरी ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनपर जो आस्था और विश्वास जताया है वे उसे ताज्जु कभी टूटने नहीं देंगे और पार्टी में ज्यादा से लोगों को जोड़कर उसे मजबूती प्रदान करेंगे।

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

(धारा 82 Cr.P.C. देखिए)

मेरे समक्ष परिवारद किया गया है कि अभियुक्त **कपिल गुप्ता पुत्र सतीश गुप्ता निवासी डी-77, गली नं. 01, चांद बाग, दिल्ली** ने केस **एफआईआर नं. 365 / 2008** अन्तर्गत धारा **452 / 323 / 506 / 34 आईपीसी, थाना गोकल पुरी, दिल्ली** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **कपिल गुप्ता** मिल नहीं रहा है, और मुझे सामाधानप्रद रूप से दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **कपिल गुप्ता** फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है) इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि केस **एफआईआर नं. 365 / 2008** अन्तर्गत धारा **452 / 323 / 506 / 34 आईपीसी, थाना गोकल पुरी, दिल्ली** के उक्त अभियुक्त **कपिल गुप्ता** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवारद का उत्तर देने के लिए दिनांक **11.06.2025** को या उससे पहले हाजिर हो ।

आदेशानुसार **कनिका अग्रवाल** न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-03 कारागार नं. 22, प्रथम तल कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली

DP/5701/NE/2025 (Court Matter)

उत्तर रेलवे

ई-निविदा (ई-प्रोक्यूरमेंट) के माध्यम से निविदा आमंत्रण

निम्नलिखित कार्य के लिये वरिष्ठ मंडल अभियंताIIA, उत्तर रेलवे, दिल्ली मंडल में ई-निविदा आमंत्रण ।

1। NIT-12 – कार्य का नाम : वरिष्ठ मंडल अभियंता-IIA/दिल्ली के अंतर्गत सहायक मंडल अभियंता गाजियाबाद के SSE/P.Way/GZB-I के खंड में ट्रैक के रखरखाव के लिए वार्षिक पी.वे वार्षिक जोन 2025-26 का प्रावधान।

कार्य की अनुमानित लागत (रुपये) :- IREPS पर NIT के अनुसार।

बयाना राशि (रुपये) :- IREPS पर NIT के अनुसार।

2। NIT-13 – कार्य का नाम : वरिष्ठ मंडल अभियंता-IIA/दिल्ली के अंतर्गत सहायक मंडल अभियंता गाजियाबाद के SSE/P.Way/GZB-I के खंड में ट्रैक के रखरखाव के लिए वार्षिक पी.वे वार्षिक जोन 2025-26 का प्रावधान।

कार्य की अनुमानित लागत (रुपये) :- IREPS पर NIT के अनुसार।

बयाना राशि (रुपये) :- IREPS पर NIT के अनुसार।

3। NIT-14 – कार्य का नाम : वरिष्ठ मंडल अभियंता-IIA/दिल्ली, सहायक मंडल अभियंता शामली व गाजियाबाद के कार्यक्षेत्र में स्टील गर्डर पुलों की प्रतिस्थापन >9.15 मीटर और 12.20 मीटर तक PSC स्लेब व सहायक मंडल अभियंता मेरठ के खंड में >6.15 से >9.15 मीटर तक PSC स्लेब।

कार्य की अनुमानित लागत (रुपये) :- IREPS पर NIT के अनुसार।

बयाना राशि (रुपये) :- IREPS पर NIT के अनुसार।

4। निविदा खोलने की तिथि और समय : 30.05.2025, 15:00 Hrs.

5। वेबसाइट विवरण जहां निविदा दस्तावेजों का पूरा विवरण देखा जा सकता है : निविदा www.ireps.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध।

• ठेकेदारों को ई-टेंडर प्रणाली में मांग लेने के लिए भारतीय रेलवे ई-प्रोक्यूरमेंट सिस्टम (IREPS) साइट यानी www.ireps.gov.in के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए। • सभी नियमों और शर्तों के लिए कृपया निविदा दस्तावेज देखें। • मेनुअल निविदाये स्वीकृत नहीं की जायेंगी। • निविदा दस्तावेज और बयाना की लागत केवल नेट बैंकिंग या मुग़तान गेटवे के माध्यम से स्वीकरी होगी।

सं.: 128-W/280/e-Tender Notice/NIT-12, 13 & 14-25-26-W-I दिनांक: 07.05.2025 1363/25

गाहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

हरियाणा सरकार				निविदा सूचना		
क्र. सं.	विभाग का नाम	कार्य सूचना निविदा का नाम	खुलने की तिथि वर होने की तिथि	राशि, ईएमडी (रुपय)। रु. में	विभाग की वेबसाइट	नोट्स अधिकारी / सम्पर्क विवरण, ई-मेल
1	लोनिवि भ व प	हिसार और फतेहाबाद में सैकेनिकल वर्कशॉप में रोलिंग शटर की आपूर्ति, स्थापना, पेंटिंग और प्रचालन का कार्य।	05.05.2025 12.05.2025	4.92 लाख	https://tenders.hry.nic.in	01682-225133 pzw-eendm-hissar@hry.nic.in
2	लोनिवि भ व प	एमनरपरएसस रई में ऑडिटोरियम बिल्डिंग के पुनरोद्धार हेतु विशेष मरम्मत + 2 कार्य।	05.05.2025 12.05.2025	81.68 लाख	https://tenders.hry.nic.in	13022200575 pzw-espad-d-sonepat@hry.nic.in
3	वन विभाग चरखी दादरी	कादमा ब्लॉक का न्यू प्लांटेशन + 4 अन्य कार्य।	05.05.2025 12.05.2025	147.73 लाख	https://tenders.hry.nic.in	9968163096 dfdadadri@yahoo.com
4	बी.पी.एस. जौ.एस.सी. फरीदौम खानपुर कली, सोनीपत	एसएसएसआर मशीन की स्थापना के लिए निश्चित किए गए कमरे को साइंड प्रुक्ति बनाने के लिए ई-निविदा + 1 अन्य कार्य।	08.05.2025 19.05.2025	ईएमडी 54,000	https://tenders.hry.nic.in	9728972827 Bpsgnc.purchase@gmail.com

अधिक जानकारी हेतु कृपया पधारें : www.etenders.hry.nic.in पीआरडीएच-11/2026/80/34562/1/88/7 07.05.25

‘ऑपरेशन सिंदूर’: दिल्ली कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर पीएम का जताया आभार, सेना को दी बधाई

स्वच्छता अभियान के तहत की जाए दिल्ली की सफाई

मेगा स्वच्छता अभियान में हिस्सा
ले सभी दिल्लीवासी : रेखा गुप्ता

30 मई, 2025 (रविवार)

दिनांक 16/04

ई-नीलामी 2025-26 वर्ष
यदि वर्ष 2025-26 के लिए कृषि
आधार पर

पंजीकरण ई-नीलामी की विधायित तिवि
ई-नीलामी सुबह 10 बजे

EPABX - 0172-2567858
हेल्पलाइन नंबर: 1800-18

मुख्य प्रशासक
हृदयाणा धादरी
जी-3, पारसानी नगर
hsvp.org.in

खबर संक्षेप

सायरन बजते ही जमीन पर लेटे लोग

लखनऊ। संभावित हमले को लेकर लोगों को अलर्ट करने और हमले के दौरान जरूरी कदम उठाने



के लिए लखनऊ के पुलिस लाइन मैदान में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सीएम योगी विशेष रूप से मौजूद रहे। इस आयोजन में पुलिस के साथ-साथ एनडीआरफ, एसडीआरफ, सिविल डिफेंस, फॉयर और मेडिकल से जुड़े कर्मचारी मौजूद रहे।

अपराधियों ने छात्र की गोली मारकर हत्या

वैशाली। वैशाली जिले में नगर थाना क्षेत्र के आरएन कॉलेज के निकट आम के गझी में कार सवार



अपराधियों ने बुधवार सुबह गोली मारकर युवक की हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची डायल 112 की पुलिस ने भाग रहे अपराधी का पीछा किया। भागने के दौरान अपराधी ने कार से एक स्कूल बस में धक्का मार दिया। डायल 112 की पुलिस ने पकड़ने का प्रयास किया।

चलते टैकर में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने बुझाई

वैशाली। वैशाली जिले में महात्मा गांधी सेतु पाया नंबर-19 के पास से चलती तेल टैकर की केबिन में



अचानक शार्ट सर्किट के कारण आग लग गई। अचानक केबिन से निकल रहे धुएँ के कारण चालक ने तुरंत अपनी सूझबूझ से ट्रक को कोर लिया और घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड को दिया। उसके बाद मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की टीम ने धू-धू कर जल रहे ट्रक की आग बुझाने में सफल रही। हालांकि, घटना स्थल पहुंची गंगा ब्रिज थाने की पुलिस अधिकारी ने तेल टैकर को जन्त कर थाने ले आया है।

पेज एक का शेष...

पहलगाम में हुए आतंकी...

अधिकारी कर्नल सोफिया कुरेशी और विंग कमांडर ज्योमिका सिंह भी शामिल हुईं। सूत्रों ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में वायुसेना के राफेल और सुखोई लड़ाकू विमानों का प्रयोग करते हुए स्मार्ट एयुनिशन और प्रिंसिशन वेपन सिस्टम का प्रयोग किया गया, पाक के किसी सैन्य ठिकाने या नागरिक आबादी वाले इलाकों को भारत ने निशाना नहीं बनाया है। विदेश सचिव ने 7 मई की सुबह की गई भारत की इस कार्रवाई को पूरी तरह से कैंडिड, नपी-तुली, गैर बढ़ाई हुई, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण बताया। साथ ही कहा कि पाकिस्तानी आतंकिर्यों की पहलगाम के बाद देश के कई अन्य इलाकों को आतंकी हमलों से दहलाने की नापाक साजिश को लेकर मिली खुफिया एजेंसियों की इनपुट, आतंकी संगठन टीआरएफ द्वारा ली गई हमले की जिम्मेदारी के जवाब में यह एक्शन किया गया है। इसके जरिए हमारा उद्देश्य केवल पाक प्रायोजित आतंकवादियों और उनके ठिकानों को नैस्तनाबूद कर उन्हें निरक्षय बनाना था। पहलगाम हमले के अपराधियों, आयोजकों, वित्तपोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने के लिए न्याय के कठघरे में लाने की आवश्यकता है। भारत की नवीनतम कार्रवाइयों को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद अगर पाकिस्तान की तरफ से तनाव को बढ़ाने के लिए भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। तो उसका उसी की भाषा में करारा जवाब देने के लिए तीनों सशस्त्र सेनाओं के साथ अर्धसैन्यबल हाईअलर्ट के साथ मोर्चे पर डटे हुए हैं। वहीं, पाकिस्तान की तरफ से एलओसी और आईबी के इलाकों में भारी गोलीबारी की जा रही है। जिसमें करीब 18 भारतीय नागरिकों के मारे जाने की खबर है। इसमें 4 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन भारत की सेना दुश्मन की गोलीबारी का सख्त अंदाज में जवाब दे रही है।

जम्मू-कश्मीर की प्रगति से चिढ़ा पाक : विदेश सचिव ने कहा कि 26/11 मुंबई आतंकी हमले के बाद पहलगाम का हमला पाकिस्तानी आतंकिर्यों द्वारा भारत पर किया गया एक और बड़ा आतंकी हमला था। जिसमें आतंकिर्यों ने भारतीय पर्यटकों को निशाना बनाया। इसमें 25 भारतीय और 1 नेपाली समेत कुल 26 नागरिक मारे गए। हमला पूरी तरह से कायरतापूर्ण था। पीड़ित परिवारों को गहरा आघात पहुंचाने के लिए उनके प्रियजनों के सिर पर गोली मारी गई और उसके बाद उन्हे इस संदेश को आगे पहुंचाने के लिए कहा गया। जम्मू-कश्मीर की सामान्य स्थिति को कमजोर करने और वहां जारी प्रगति और विकास को नुकसान पहुंचाने के मकसद से यह हमला किया गया था। जिससे पाकिस्तान को जम्मू-कश्मीर को एक पिछड़ा इलाका बनाए रखने के साथ सीमा पर आतंकवाद को जारी रखने के लिए उपजाऊ जमीन तैयार रखने का मकसद उसके पास था। पिछले साल केंद्र शासित प्रदेश में सवा दो करोड़ से ज्यादा पर्यटक

काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर जैसा होगा एयरपोर्ट का मुख्य टर्मिनल भवन



वाराणसी में एयरपोर्ट पर पहुंचते ही काशी विश्वनाथ धाम जैसा एहसास होने लगेगा। न्यू टर्मिनल बिल्डिंग समेत प्रमुख टर्मिनल भवन को काशी विश्वनाथ मंदिर जैसा ही बनाया जाएगा। इसका डिजाइन भी फाइनल कर दिया गया है।

देश दुनिया से आने वाले यात्रियों को बाबतपुर एयरपोर्ट पर उतरे ही श्रीकाशी विश्वनाथ धाम जैसा एहसास होगा। न्यू टर्मिनल बिल्डिंग समेत प्रमुख टर्मिनल भवन का स्वरूप श्रीकाशी मंदिर के शिखर की तर्ज पर बनाया जा रहा है। इसकी डिजाइन भी फाइनल कर ली गई है। गोल्डन कलर में ही शिखरनुमा टर्मिनल भवन होगा। दो दिन पूर्व टर्मिनल भवन के निर्माण कार्य समीक्षा और निरीक्षण में एयरपोर्ट निदेशक ने कार्यदायी संस्था के संग बैठक के दौरान इस पर विशेष जोर दिया। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का निर्माण कार्य अहलूवालिया कंस्ट्रक्शन कंपनी कर रही है। 75000 वर्ग मीटर में बनने वाले एयरपोर्ट पर लगभग 900 करोड़ खर्च होंगे। तीन मंजिला टर्मिनल भवन में भूतल पर आगमन हॉल और प्रथम तल पर प्रस्थान होगा।

60 फीसदी से अधिक हुआ कार्य

तृतीय तल पर कार्यालय प्रस्तावित है। टर्मिनल बिल्डिंग में आठ एयरो ब्रिज, 72 चेक इन काउंटर, आठ कन्वेयर बेल्ट समेत 14 सिक्योरिटी काउंटर बनाए जाने हैं। सिक्योरिटी होल्ड एरिया में काशी की संस्कृति की झलक और दीवारों पर लिखे वैदिक मंत्र यात्रियों को आकर्षित करेंगे। इस पर गंगा घाटी, मंदिरों और सारनाथ के पर्यटन को भी दर्शाया जाएगा। एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि न्यू टर्मिनल भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। फाउंडेशन का काम 60 फीसदी से अधिक हो चुका है। न्यू टर्मिनल भवन का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2024 को किया था।

टर्मिनल निर्माण के बाद यात्रियों की क्षमता में और वृद्धि होगी

एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि इस समय 80 से 82 विमान से रोजाना 15 से 16 हजार यात्रियों की आवाजाही हो रही है। टर्मिनल निर्माण के बाद से यात्रियों की क्षमता में और वृद्धि होगी। बाबतपुर एयरपोर्ट से शारजाह तक की विमान सेवा और अन्य शहरों के लिए भी उड़ानें हैं।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन 'सिंदूर' कार्रवाई पर दी प्रतिक्रिया बोले

जिन्होंने भारत की बहन-बेटियों का सिंदूर छीना उन्हें खानदान खोना पड़ा, सेना ने दिखाया पराक्रम

एजेसी ►► कानपुर

बुधवार सुबह भारतीय सेना ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इस ऑपरेशन में बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद जैसे आतंकी गढ़ों को निशाना बनाया गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, जय हिंद! जय हिंद की सेना! यह हमला 22 अप्रैल को पहलगाम टेरर अटैक पर जवाबी कार्रवाई के तौर पर किया गया है।

भारतीय सेना द्वारा 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद जैसे गढ़ों को निशाना बनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए 'एक्स' पर जय हिंद! जय हिंद की सेना! लिखा।



भारत ने आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की

ऐशान्या ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया

पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया। जिस तरह से उन्होंने (पाक को) जवाब दिया, उसने हमारा भरोसा कायम रखा है। यह मेरे पति की सच्ची श्रद्धांजलि है। आंखों में आंसू लिए ऐशान्या पहलगाम के उस दृश्य को याद कर आतंकिर्यों के खिलाफ आज भी आक्रोशित हो उठती है।

कानपुर में उल्लास

ऑपरेशन सिंदूर की खबर मीडिया और सोशल मीडिया पर फैलते ही कानपुर के लोगों में उल्लास की लहर दौड़ गई। लोग टीवी स्क्रीन के सामने पूरी रात जागते रहे। वे भारतीय वायुसेना के पराक्रम को देख बर्ब से भर उठे। शहीद शुभम द्विवेदी के परिवार के लिए यह पल बेहद भावुक रहा। शुभम के परिजनों की आंखों से खुशी और संतोष के आंसू छलक पड़े।

पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक से हर तरफ खुशी का माहौल, जगद्गुरु बोले - पाकिस्तान का सफाया अब निश्चित



अयोध्या। पाकिस्तान पर किए गए एयर स्ट्राइक से हर तरफ खुशी का माहौल है। इसी बीच जगद्गुरु परमहंस आचार्य ने सेना के टैक का पूजन किया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि है। यहां से आतंकवाद अपने खाले की ओर है। उन्होंने यह भी कहा था कि आतंकवाद अपनी अंतिम सांस ले रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि धर्म पूछकर मारा जाना देश में स्वीकार नहीं किया जाएगा। हम आतंक के ताबूत पर अंतिम कील ठोकेंगे और आतंकिर्यों को कठोर सजा देंगे। आतंकवाद किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं किया जाएगा।

456 परियोजनाओं को पूरा करने का काम किया है। रक्षा मंत्री ने विश्वास जताते हुए कहा कि आज उद्घाटित की गई परियोजनाएं देश की रक्षा तैयारियों को बढ़ाएंगी तथा संबंधित क्षेत्रों में परिवहन, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगी। यह केवल बुनियादी ढांचा नहीं बल्कि उच्चतम भविष्य के मार्ग हैं। उन्होंने वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए सशस्त्र बलों के लिए नई पीढ़ी के आधुनिक ढांचे के निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया। बीआरओ को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इसकी तैयारी युद्धस्तर पर हो।

आप हवाई यात्रा कर ...

से पूरी तरह बंद कर दी गई हैं। यह बंदी 10 तक लागू रहेगी। विशेष परिस्थिति को देखते हुए 200 से अधिक उड़ानें रोक दी गई हैं। सभी प्रमुख एयरलाइंस और हवाई अड्डा प्राधिकरणों ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे हवाई अड्डे पर आने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति की जांच करें। रिफंड या रिशिड्यूलिंग के लिए संबंधित एयरलाइंस के कस्टमर केयर से संपर्क करें। उड़ान रद्द करने और हवाई अड्डा बंदी का कारण:

- ऑपरेशन सिंदूर: बुधवार को 1:44 बजे, भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किया। यह हमला गत 22 अप्रैल पहलगाम (जम्मू-कश्मीर) में हुए आतंकी हमले का जवाब था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। इस सैन्य कार्रवाई के बाद हवाई क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के लिए उड़ान सेवाएं रोक दी गईं।
- हवाई क्षेत्र प्रतिबंध: भारतीय वायुसेना और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत उत्तरी भारत के कई हवाई अड्डों में हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया। श्रीनगर हवाई अड्डे पर भारतीय वायुसेना ने पूर्ण नियंत्रण ले लिया, जिसके चलते कोई भी नागरिक उड़ान संचालित नहीं हो रही।
- पाकिस्तान का जवाबी कदम: पाकिस्तान ने भी अपने हवाई क्षेत्र को भारतीय विमानों के लिए बंद कर दिया, जिससे अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के मार्ग बदलने पड़े।
- सिविल डिफेंस ड्रिल: 7 मई को देश के 244-259 सीमावर्ती जिलों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है, जिसमें हवाई हमले के सायरन और ब्लैकआउट का अभ्यास शामिल है। इसने भी एयरलाइंस को प्रभावित किया है।
- प्रभावित एयरलाइंस: ■ एयर इंडिया: जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़, और राजकोट से/के लिए सभी उड़ानें रद्द। अमृतसर जाने वाली दो अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को दिल्ली यावर्त किया गया। यात्रियों को री-शेड्यूलिंग या पूर्ण रिफंड की सुविधा दी जा रही है। ■ इंडिगो: श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, लेह, चंडीगढ़,

धर्मशाला, बीकानेर, जोधपुर, ग्वालियर, और किशनगढ़ से/के लिए 165 से अधिक उड़ानें 10 मई सुबह 5:29 बजे तक रद्द। यात्रियों से फ्लाइट स्टेटस चेक करने की अपील की गई। ■ स्पाइसजेट: धर्मशाला, लेह, जम्मू, श्रीनगर, अमृतसर, और कांडला हवाई अड्डों से उड़ानें 10 मई तक रद्द। यात्रियों को रिफंड या वैकल्पिक उड़ान की सुविधा दी जा रही है। ■ एयर इंडिया एक्सप्रेस और अकासा एयर: अमृतसर, जम्मू, श्रीनगर, और हिंडन एयर बेस से उड़ानें रद्द। कांडला हवाई अड्डा भी अनिश्चितकाल के लिए बंद।

अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस:

■ कतर एयरवेज: पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण पाकिस्तान के लिए उड़ानें रद्द। लुफ्थान्सा, एयर फ्रांस, ब्रिटिश एयरवेज, स्विस् इंटरनेशनल, और एमिरेट्स: पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र से बचने के लिए उड़ान मार्ग बदले। ■ कोरियन एयर और ईवा एयर: भारत-पाक तनाव के कारण पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र से बच रहे हैं।

गृहमंत्री ने सीमावर्ती राज्यों...

सिन्हा और लदाख के उप राज्यपाल ने भी शिरकत किया। सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के प्रतिनिधियों को भी बैठक में शामिल किया गया था। इससे बैठक को विशिष्टता का पता चलता है। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तानी आतंकिर्यों के खिलाफ चलाये गये ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है, और पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी तेज कर दी है। सीमावर्ती राज्यों को अपनी सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतजाम तत्काल सुनिश्चित करनी चाहिए इस पर विस्तार से चर्चा की गई।

अरब सागर में युद्धन्यास ...

की ओर से संभावित जवाबी कार्रवाई को देखते हुए सर्कटला बंदाने पर जोर दिया गया। रात्रियों को निर्देश दिया गया कि वे सीमावर्ती क्षेत्रों में सख्ति गतिविधियों की निगरानी करें और खुफिया तंत्र को मजबूत करें। मुख्य सचिवों को आपातकालीन स्थिति में हिजली, पानी, और चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए गए। डीजेलीय उत्तर पर आतंकवाद विरोधी इकाइयों एटीएस और विशेष टास्क फोर्स को सक्रिय करने के लिए कहा गया। उड़ान सेवाओं के निरोधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों के प्रभाव को कम करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई। रेलवे और सड़क परिवहन को सुचारु रखने के लिए सुरक्षा उपायों को लागू करने के निर्देश दिए गए। केंद्र सरकार ने आज गुरुवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर और वर्तमान स्थिति पर चर्चा होगी। अंतिम शहद ने मुख्यमंत्रियों से इस बैठक के लिए शुक्रवार और सहयोग मांगा।

भगवानपुर गोली कांड मामले में हथियारों का जखीरा बरामद

एजेसी ►► कैमूर

कैमूर पुलिस ने भगवानपुर गोली कांड मामले में हथियारों के जखीरा के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही उनके पास से 18 जिंदा कारतूस और 18 खोखा बरामद किया है। बकाया पैसे की लेन देन को लेकर पांच मई को गोलीबारी की घटना हुई थी। इस घटना में घायल दो युवकों का अभी वाराणसी में इलाज चल रहा है।

वहीं, मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। इस पर प्रेसवार्ता कर कैमूर एसपी हरिमोहन शुक्ला ने बताया कि बीते पांच मई को भगवानपुर सीमा अंतर्गत बहुरी सुनरी रोड में तीन मोहानी पर गोलीबारी की घटना घटित हुई थी। इसमें मरची गांव के लव पांडेय उर्फ बमबम पांडेय को पेट में गोली लगी थी एवं अंतु यादव को पीट में गोली लगी थी, जिनका अभी भी वाराणसी में इलाज चल रहा है। पुलिस द्वारा घायलों के बयान पर नामजद पांच अभियुक्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था। घटना में प्रयोग किया हथियार के साथ इस घटना से संबंधित लोग कसेर गांव में हैं। इसके अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भभुआ शिवशंकर कुमार ने गठित टीम के साथ कसेर गांव पहुंचे और दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

चिंतन

ऑपरेशन सिंदूर से आतंक पर भारत का करारा प्रहार

भारत ने पाकिस्तान स्थित आतंकी गुटों के नौ ठिकानों को ध्वस्त करके पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है। हमारी सेना ने ऑपरेशन सिन्दूर के जरिये अपना शौर्य दिखाया और पाकिस्तान की सीमा में घुसे बगैर पिन प्वाइंट करके टार्गेट पर सटीक हमला किया। ये हमले पीओके और पाकिस्तान स्थित आतंकी अड्डों पर किए गए। इसमें कई आतंकियों की जान भी गई है। भारत ने इस सैन्य ऑपरेशन से आतंकी गुटों और इसके सरपरस्तों को करारा जवाब दिया है कि वे भारत पर हमला करके बच नहीं सकते हैं। नया भारत शांति के पुजारी के साथ-साथ दुश्मनों को नैस्तनाबुद करने की क्षमता भी रखता है। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने निहत्थे बेकसूर पर्यटकों के समूह पर धर्म पृष्ठकर हिंदुओं पर हमला किया, जिसमें 26 पर्यटक व एक स्थानीय नागरिक मारे गए। इस हमले की जिम्मेदारी प्रतिबंधित आतंकी गुट द रेंजिस्टर्ड फ्रंट (टीआरएफ) ने ली। टीआरएफ पाकिस्तान स्थित आतंकी गुट लश्करें तैयबा का छत्रा गुट है। इससे साफ हो गया था कि पहलगाम में टीआरएफ के आतंकी हमले पाकिस्तान स्थित आतंकी गुटों की करतूत है। पाकिस्तान में लश्करें तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आधा दर्जन आतंकी गुट पाकिस्तान एटॉक्लिशमेंट की सरपरस्तों में भारत में आतंकी हमले में लिप्त है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने आतंक की नस काटने के लिए अनेक कदम उठाए। सिंधु जल संधि को निलंबित किया, चिनाब का पानी रोका, अटारी व वाघा सीमा को बंद किया, पाकिस्तान के नागरिकों को भेजा, पाक उच्चायोग में कर्मियों की संख्या 30 तक सीमित की, ट्रेड पूरी तरह बंद किया, हवाई क्षेत्र बंद किए, पाक के यूट्यूब चैनल ब्लॉक किए गए। इसके बाद आखिर में सेना ने पाक स्थित आतंकी अड्डों को एयर स्ट्राइक करके नैस्तनाबुद किया। इस दौरान भारत ने ध्यान रखा है कि पाक के सामान्य नागरिकों, पाक फौज के क्षेत्र और पाक के सरकारी प्रतिष्ठानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। इसके बाद से बौखलाया पाकिस्तान सीमा पार से एलओसी पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर गोलीबारी कर रहा है, जिसमें करीब 15 भारतीय नागरिक मारे गए हैं, भारत इस गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। देश इस वक्त हाई अलर्ट पर है और पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस के लिए तैयार है। भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमेशा जारी रखेगा और आतंक के आकाओं का खात्मा करता रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान स्थित पीओके में मुजफ्फराबाद स्थित लश्कर के सवाई नाला ट्रेनिंग सेंटर, सैयदना बिलाल कैंप, कोटली का लश्कर का गुरुरु कैंप, अब्बास कैंप, भिम्बर का बरनाला कैंप, सियालकोट का सरजल कैंप व हिजबुल मुहम्मना जाया कैंप, मुरीदा के का मरकज तैयबा कैंप, बहावलपुर में जैश का हेडक्वार्टर मस्जिद सुभान अल्लाह जैसे अहम आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करके दहशतगर्दी के ढांचे की कमर तोड़ी गई है। आतंक के इन्हीं अड्डों से भारत के खिलाफ आतंकवादी कुकृत्यों को अंजाम दिए जाते रहे हैं। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा कि सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ढांचे को नष्ट करने और भविष्य में ऐसे किसी हमले को रोकने के लिए 'नपी-तुली, टकराव को न बढ़ाने वाली, संतुलित और जिम्मेदाराना' कार्रवाई की। भारत ने आतंकियों को कड़ा सबक सिखाया है। भारत ने मिसाइल हमले कर बता दिया है कि हमारा दायरा सीमित नहीं है, आतंक के खिलाफ हम कहीं भी कार्रवाई कर सकते हैं।

विश्लेषण

विनोद पाटक



पाक सेना की पकड़ से छूट रहा पाकिस्तान!

नौ मई 2023 का दिन पाकिस्तानी सेना कभी भूलेगी नहीं, उस दिन पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों ने पाकिस्तान में उस भ्रम को तोड़ दिया था कि वहां सेना को कोई चुनौती नहीं उठ सकती। इमरान समर्थकों ने न केवल 20 से ज्यादा सैन्य और सरकारी भवनों पर हमला किया था, बल्कि रावलपिंडी में सेना के मुख्यालय में घुसकर तोड़-फोड़ की थी। तब एक तरह से पाकिस्तान की जनता का विश्वास अपनी सेना से उठ गया था। पाकिस्तानी सेना की इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। ठीक दो साल बाद 6-7 मई की मध्यरात्रि को भी पाकिस्तान सेना भूलेगी नहीं। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के ठीक दो सप्ताह बाद ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान सेना के चेहरे से एक और नकाब उतार दिया है। यह स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान सेना की और दुर्गति देखने को मिलेगी। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में नागरिक सरकार सिर्फ एक मुछोटा भर है। पाकिस्तान सेना ही देश को चलाती है। अपनी झूठी प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए पाकिस्तान सेना केवल और केवल प्रोपेगंडा का सहारा लेती है। 1965 के भारत-पाक युद्ध, जिसमें पाकिस्तान सेना की करारी हार हुई थी, में वो खुद को विजेता घोषित बनाती आ रही है। हर वर्ष 6 सितंबर को 'रक्षा दिवस' या 'यौम-ए-दिफा' मनाती आ रही है, जबकि 1965 में तथाकथित मजबूत पाकिस्तान सेना की पोल 1971 में तब खुल गई थी, जब भारतीय सेना ने न केवल उसे पटखनी दी, बल्कि पाकिस्तान के दो टुकड़े भी करा दिए थे। 1971 भारत-पाक युद्ध के बाद पाकिस्तान सेना के जनरल जिया-उल-हक ने मार्शल लॉ लगाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया था। साढ़े चार दशक से पाकिस्तान की जनता अपनी सेना के झूठ को सच मानकर झुम रही थी, लेकिन अब लग रहा है कि जनता का मन सेना से भर गया है। बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा या पाक अधिकृत कश्मीर, हर तरफ से पाकिस्तान सेना के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सेना पर लगातार हमले हो रहे हैं। पाकिस्तानी सैनिक मारे जा रहे हैं। खिद्रोह को दबाने के लिए पाकिस्तान सेना ने जुलूम की इंतहां की हुई है। जो कोई पाकिस्तान सेना के खिलाफ कुछ बोलता है, या तो वो जेल में होता है या देश छोड़कर उसे भागने पर विवश होना पड़ता है। पाकिस्तान सेना के कुछ और झूठों पर नजर डालते हैं। 2016 में उरी हमले के बाद भारतीय सेना की स्ट्राइक को पाकिस्तान सेना ने सिरे से नकार दिया था, जबकि उसे नुकसान हुआ था। 2019 में पुलवामा के बाद जब भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की तो पाकिस्तान सेना ने उसे बिना किसी नुकसान वाला बता डाला था, जबकि बालाकोट में जिस आतंकी ठिकाने पर भारतीय वायुसेना ने मिसाइल गिराई थीं, वहां चार महीने मीडिया को जाने नहीं दिया गया था। भारतीय एयर स्ट्राइक के अगले दिन पाकिस्तान वायुसेना ने जवाबी हमला किया था, जिसमें पाकिस्तानी वायुसेवा के पायलट अभिनंदन पाकिस्तान के एफ-16 लड़ाकू जहाज का पीछा करते हुए एलओसी पार कर गए थे और उनके मिग-21 बाइसन ने एफ-16 को मिसाइल से शूट कर दिया था। हालांकि, अभिनंदन का विमान भी मिसाइल लगने से क्रैश हो गया था। पाकिस्तान सेना की सोशल मीडिया टीम यह भ्रम फैलाकर अपनी जनता को उल्लू बना रही है कि उसने भारतीय वायुसेवा के लड़ाकू जहाजों को गिराया है, जबकि भारत सरकार और सेना यह साफ कर चुकी है कि सभी पायलट सुरक्षित हैं। कोई जहाज नष्ट नहीं हुआ है। दरअसल, दुनिया में एक मजाक चलता है कि सभी देशों को फौज मिली है, लेकिन पाकिस्तान में फौज को एक देश मिला है। अपने फायदे के लिए पाकिस्तान सेना शुरू से वहां आतंक को पालती आ रही है। पाकिस्तान सेना के जनरलों ने अरबों अमेरिकी डॉलर आतंकवाद के नाम पर डकारे हैं। अब पाकिस्तान सेना का बुरा समय शुरू हो गया है। जिस आतंकवाद रूपी जहरीले सांप को उसने पाला था, वही उसे डस रहा है। पाकिस्तान सेना के खिलाफ देश के भीतर से आवाजें उठ रही हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से बगावत के सुर बुलंद हो चले हैं। पाकिस्तान सेना को वहां के लोग ही उसका असली चेहरा दिखा रहे हैं। भारत के लिए यह सुनहरा अवसर है। भारत को चाहिए कि वो पाकिस्तान सेना की कमर तोड़ दे। ऑपरेशन सिंदूर तक न रुके। जैसा कुछ पूर्व भारतीय जनरल कह रहे हैं कि यह ऑपरेशन सिंदूर का फस वन है। आवश्यकता पाकिस्तान सेना को हर तरीके से नुकसान पहुंचाने और बेनकाब करने की है। आतंकी पाकिस्तान सेना का फन कुचलने तक भारत को रुकना नहीं चाहिए।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)



ऑपरेशन सिंदूर विकेश कुमार बडौला

भारतीय सेना ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने ये हमले केवल और केवल उन आतंकी ठिकानों पर किये हैं जो पहलगाम समेत भारत के अन्य क्षेत्रों पर किये जाते रहे आतंकी हमलों के मुख्यालय के रूप में कार्यरत थे। सेना ने अपने आधिकारिक वक्तव्य में यह भी स्पष्ट किया है कि भारत ने अपनी कार्रवाई में पाकिस्तान गणतंत्र के किसी भी राजनीतिक, सैन्य या अन्य आधिकारिक प्रतिष्ठान पर हमला नहीं किया है। सेना और भारतीय शासन के माध्यम से इस कार्रवाई के बारे में दुनिया के उत्तरदायी देशों और संस्थाओं को भी यथासंभव माध्यम से सूचित कर दिया गया है। जिन पाकिस्तानी क्षेत्रों पर हमला हुआ है चूँकि वे लाहौर व सियालकोट एयरपोर्ट के समीप हैं अतः पाकिस्तान ने अपने इन दोनों एयरपोर्ट का परिचालन बंद कर दिया है। हमले की प्रतिक्रिया में पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान के पांच स्थानों पर हमला किया है और वे इसका करारा जवाब देंगे। उनके अनुसार उन पर जंग थोपी जा रही है। दोनों देशों के बीच विगत एक पखवाड़े से चली आ रही युद्ध की आशंकाओं के बाद भारत की एयर स्ट्राइक के संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपने अमेरिकी समकक्ष से भी बात की। इससे पहले शासन ने 6 मई को पाक के साथ भारत के संभावित युद्ध होने की स्थिति में भारत पर शत्रु देश के हमले की स्थिति में सार्वजनिक जनजीवन की सुरक्षा के दृष्टिगत एक मांक ड्रिल यानी सुरक्षा संबंधी पूर्वाभ्यास के बारे में भारतभर में जागरूकता संदेश प्रसारित किया है। यह अभ्यास 7 मई को अपराह्न व संध्याकाल में विधिवत ढंग से पूर्ण कर लिया गया है। पहलगाम नरसंहार के बाद पाकिस्तान तथा उसके आतंकवादियों पर भारतीय जनक्रोश के बढ़ते

सिद्धार्थ से बुद्धत्व तक की यात्रा



संकलित

दर्शन

जन्म, संबंधि और निर्वाण- बुद्ध के जीवन की ये तीन महत्वपूर्ण घटनाएं वैशाख पूर्णिमा के दिन हुईं। यह सिद्धार्थ के बुद्धत्व तक की यात्रा है, जिसमें उन्होंने जन-कल्याण के लिए महानिर्वाण को भी त्याग दिया। बुद्ध का हृदय करुणाशील था, जैसे उनके हृदय में करुणा का सागर हिलोरें ले रहा हो। यह करुणा ही उनके सूत्रों को मानवता के कल्याण का प्रेरक बनाती है। उनका उद्देश्य केवल बाहरी दुनिया को बदलना नहीं था, बल्कि अंदर की स्थिति को बाहरी जगत से एकीकृत करना था। बुद्ध का एक प्रसिद्ध धम्मसूत्र- हे- मनुष्य का जीवित रहना भी दुर्लभ है, सद्धर्म का श्रवण करना भी दुर्लभ है और बुद्धों का उत्पन्न होना भी दुर्लभ है। मनुष्य होना इतना आसान नहीं है, इतना सरल नहीं है। हालांकि हमें यही लगता है कि डेढ़ अरब से अधिक जनसंख्या अकेले भारत की ही है। इसका मतलब मानव जन्म सुलभ है, तभी तो सब पैदा हो गए। पर बुद्ध ने कुछ सोच-समझकर ही ऐसा कहा होगा क्योंकि बुद्ध ऐसे व्यक्ति हैं, जो सिर्फ बोलने के लिए कोई बात नहीं बोलते, बल्कि विज्ञान, तर्क, बुद्धि, विवेक आदि का उपयोग करने के बाद ही मुख से वचन निकालते हैं। उनके कहने का अभिप्राय यह है कि सिर्फ मनुष्य का शरीर पाया तो क्या पाया, अगर मनुष्यता नहीं पाई तो मनुष्य कहां से हुआ! मनुष्य शरीर कीमती है, निश्चित ही कीमती है, लेकिन मनुष्य का शरीर मिल गया, अब और कुछ नहीं चाहिए! ऐसा नहीं है। जैसे गुलाब का बीज तुम्हारे हाथ में हो, लेकिन उस बीज को जब तक तुम धरती में नहीं डालो और वह पौधा न बने, उसमें फूल न लगे, तब तक आप उस बीज से निकलने वाले फूलों को खुशबू नहीं ले सकते।

अंतर्मन



करंट अफेयर

सोमनाथ मंदिर के लिए पाक से लाया गया था सिंधु का जल

आजादी के बमुश्किल चार साल बाद प्राचीन सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार से जुड़े एक अनुष्ठान के लिए पाकिस्तान से सिंधु नदी का जल मांगा गया था और वहां तैनात तत्कालीन भारतीय राजनयिक ने नयी दिल्ली को सूचित किया था कि पाकिस्तान सरकार इस पर कोई आपत्ति नहीं करेगी। अभिलेखीय दस्तावेजों से यह जानकारी मिली । ये दस्तावेज भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के पास हैं । एक प्रमुख भारतीय राष्ट्रीय दैनिक में हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, फरवरी 1951 में तत्कालीन रियासत के प्रमुख ने अनुष्ठान के लिए पाकिस्तान के सिंधु नदी से कुछ जल मंगाने के लिए भारतीय अधिकारियों को अनुरोध भेजा था । यह मंदिर से संबंधित समारोह के लिए विभिन्न स्थानों से जल और मिट्टी एकत्र करने के प्रयासों का हिस्सा था। यह घटना सिंधु जल संधि से नौ साल पहले की है, जिस पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितंबर 1960 में कराची में हस्ताक्षर किए गए थे। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद नयी दिल्ली ने इस समझौते को निलंबित कर दिया है । इस हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे। दिल्ली स्थित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार (एनआई) भारत सरकार के पुराने अभिलेखों का संरक्षक है तथा प्रशासकों और शोधकर्तओं के उपयोग के लिए उन्हें रखता है ।



’शुक्ला जी को ‘घर का खाना’ मिलेगा और उनके पास नासा द्वारा अनुमोदित अंतरराष्ट्रीय व्यंजनों में से चुनने का विकल्प भी होगा । उन्होंने कहा कि इसरो और डीआरडीओ ने गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खाद्य पदार्थ विकसित किए हैं और नासा की मंगुरी से इन्हें शुक्ला को उपलब्ध कराया जा रहा है । एक्सओम स्पेस ने पिछले महीने एक्सओम मिशन 4 के चालक दल के सदस्यों का एक वीडियो साझा किया था, जिसमें वे आईएसएस के लिए उपलब्ध विभिन्न खाद्य विकल्पों का स्वाद लेते नजर आ रहे थे ।


रहने के कारण भारत के शासन पर जिस प्रकार शत्रु देश की शरण वाले आतंकवादियों व उनके ठिकानों को खत्म करने का उत्तरदायित्व आ पड़ा था, अंततः शासन ने अपना वह उत्तरदायित्व पूर्ण कर लिया है। इससे पहले एक गणतांत्रिक देश के समीचीन उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हुए भारत ने पहलगाम में अपने नागरिकों की क्रूरतम हत्याओं के बाद दोषी आतंकी गिरोहों की शरणस्थली में परिवर्तित पाकिस्तान को विभिन्न मोर्चों पर दबाने व अपमानित करने के भरसक प्रयास किये। आरंभ में अटारी-वाघा सीमा बंद करने, सिंधु जल समझौता निरस्त करने, समझौते के तहत निर्धारित



पाकिस्तान के हिस्से वाली नदियों के बांधों पर पानी रोकने, पाक राजनयिकों समेत नागरिकों को भारत छोड़ने और पाक से अपने राजनयिकों व नागरिकों को वापस बुलाने, उसके साथ हर तरह का आयात-निर्यात बंद करने, डाक कूरियर और पत्राचार सेवा बंद करने, अपने हवाई क्षेत्र को उसके लिए पूर्णतः बंद करने, वहां के विवादित यूट्यूब चैनलों सहित कई ट्विटर खातों को भारत में प्रतिबंधित करने, सिनेमा खेल इत्यादि अन्य क्षेत्रों में पारस्परिक संपर्क विच्छेद करने, इत्यादि अनेक ऐसे निर्णय पहलगाम हमले में दिवंगत अपने नागरिकों के गहन प्रतिशोध को इंगित करते हुए प्रतीत हुए थे। इसके अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा की स्थायी व अस्थायी परिषदों में पाकिस्तान को आतंक पोषण-संरक्षण की उसकी करतूतों के लिए पूरी तरह उत्तरदायी ठहराने के बाद उस पर इन ऐसी संस्थाओं द्वारा भविष्य में लगाये जा सकने वाले हरसंभव प्रतिबंध के लिए जमीन तैयार करने के लिए भी भारत ने चाकचीबंद पूर्वव्यवस्था कर दी है।

पाकिस्तान की ओर बहने वाली सभी नदियों के बांधों के पानी को रोकने जैसे निर्णय अंततः पाकिस्तान में भयंकर उथल-पुथल मचायेंगे। विगत में 2019 के

दुष्ट , नकारात्मक और अहंकारी से बचें



संकलित

प्रेरणा

चाणक्य का मानना था कि जीवन में बहुत से लोग होते हैं, जिनका साथ हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। विशेष रूप से दुष्ट, नकारात्मक और अहंकारी लोग हमारी मानसिक शांति को भंग कर सकते हैं। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में दुष्ट लोगों से बचने का महत्वपूर्ण सुझाव दिया है और इसके लिए उन्होंने सांप की तुलना का प्रयोग किया है। दुष्ट व्यक्ति और सांप की तुलना की जाए तो सांप बेहतर है, क्योंकि सांप एक बार डसता है, जबकि दुष्ट व्यक्ति हर कदम पर धोखा देता है। चाणक्य का मानना था कि दुष्ट व्यक्ति को पहचानना बहुत जरूरी है क्योंकि वह हमें बार-बार नुकसान पहुंचाता है। वे केवल एक बार नहीं, बल्कि हर समय हमें धोखा देने की कोशिश करते हैं। इसके विपरीत, सांप अपनी रक्षा के लिए डसता है, इसलिए हमें सांप से ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। चाणक्य का हमें संदेश है कि हमें दुष्ट लोगों से हर हाल में बचना चाहिए क्योंकि उनका साथ हमारे जीवन को नष्ट कर सकता है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि दुष्ट राजा, मित्र या शिष्य से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन की सुख-शांति को भंग कर सकते हैं। एक दुष्ट राजा की तुलना में प्रजा कभी सुखी नहीं रह सकती। इसी तरह, एक दुष्ट मित्र या शिष्य से हमें बहुत कम लाभ मिलेगा। चाणक्य ने मूर्खों, निर्धन लोगों और वेश्याओं से भी दूरी बनाने की सलाह दी है, क्योंकि ये लोग हमेशा किसी न किसी प्रकार से हमारी प्रगति में रुकावट डाल सकते हैं।



मुक्त व्यापार समझौता

ब्रिटेन के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करके, भारत ने एक नील का पट्टर स्थापित किया है। यह व्यापक मलाई के लिए वैश्विक सहयोग के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पर अडिग है।
-अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री



उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना

आईटीआई उन्नयन के लिए राष्ट्रीय योजना और गुणवत्ताक र्गतिता पांर राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना को मंजूरी, कुल 60,000 करोड़ रुपये के परिधाय से कोशल विकास परिशिष्टीकृति तंत्र को गति मिलेगी।
-धर्मेद प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री



आतंकवाद को समाप्त करना होगा

आतंकवाद मानवता के खिलाफ है और इसे पूरी तरह से समाप्त करना ही होगा। जो लोग संवाद और बातचीत से नहीं समझते, उन्हें उनके टुकड़ों की सजा मिलनी ही चाहिए और उनके सबक सिखाना आवश्यक है।
- श्री श्री रविशंकर



योद्धाओं को सलाम

पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों के बहादुर योद्धाओं को गर्व के साथ सलाम। अपनी बहादुरी और सटीकता के साथ उन्होंने एक बार फिर दिखा दिया है कि हमारा देश अपनी रक्षा दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ करेगा।
-एन चंदाबाबू नायडू, सीएम, आंध्र प्रदेश



अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फ़ैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

विचार हरिभूमि 8

‘आपरेशन सिंदूर’: तेंदुलकर समेत भारतीय खेल जगत ने देश की कार्रवाई को सराहा

एजेसी ॥ नई दिल्ली

पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकाणों को ध्वस्त करने के लिये भारतीय सेना के ‘आपरेशन सिंदूर’ की भारतीय खेल जगत ने सराहना की है और चैम्पियन क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने तो कहा, ‘एकता में निडर, शक्ति में असीम।’ तेंदुलकर ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘एकता में निडर, शक्ति में असीम। भारत की ढाल उसके लोग हैं। दुनिया में आतंकवाद के लिये कोई जगह नहीं है। हम एक टीम हैं। जय हिंद।’ पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने लिखा, ‘अगर कोई आप पर पत्थर फेंके तो उस पर फूल फेंको लेकिन गमले के साथ। जय हिंद।’

धवन, गंभीर व साहना ने की सराहना

पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन ने लिखा, ‘‘ भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की।’ पूर्व क्रिकेटर इरफान पटान और ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी साहना नेहवाल ने कहा, ‘‘ जय हिंद।’ भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच और भाजपा के पूर्व सांसद गौतम गंभीर ने आपरेशन सिंदूर तस्वीर के साथ लिखा, ‘ जय हिंद।’



भारत ने प्रतिकूलता को फतेह में बदला : शमी

तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने आपरेशन सिंदूर की तस्वीर के साथ लिखा, ‘‘ भारतीय सशस्त्र बल ने प्रतिकूलता को सशक्त फतेह में बदल दिया। भारतीय सेना के शौर्य और साहस ने हम सभी को गौरवान्वित किया है।’ पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने भी भारत की कड़ी प्रतिक्रिया की सोशल मीडिया पर सराहना की।

आतंकवाद अब बर्दाश्त नहीं : दत्त

ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज विजेंद्र सिंह और पहलवान योगेश्वर दत्त ने भी इसकी सराहना की। विजेंद्र ने लिखा, ‘‘ भारत माता की जय।’ योगेश्वर ने लिखा, ‘‘ आतंकवाद अब बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। जय हिंद, जय जवान।’

भारत ने दिया माकूल जवाब : विदित गुजराती

शतरंज खिलाड़ी विदित गुजराती ने लिखा, ‘‘ मुझे खुशी है कि भयानक पहलवान हमले के बाद भारत ने आपरेशन सिंदूर के जरिये माकूल जवाब दिया। आतंकवाद का जवाब दिया हो जाना चाहिये। आपरेशन का किटना सुंदर नाम। भारत माता की जय।’

ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ जवाब नहीं : श्रीजेश

भारतीय हॉकी टीम के पूर्व गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने लिखा, ‘‘तिरंगा झुकता नहीं है और जो हमारे संकल्प की परीक्षा लेंगे, वे हमारी आग का सामना करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ जवाब नहीं है, इससे याद दिलाया गया है कि हम क्या हैं। हम कहां खड़े हैं। अपने सैनिकों को सलाम करता हूँ। जय हिंद।’

आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं : पीटी उषा

भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष और पूर्व फर्स्टा थायिका पीटी उषा ने लिखा, ‘‘भारत में और दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है।’ पूर्व विश्व चैंपियन महिला मुक्केबाज निकेत जरीन ने लिखा, ‘‘हमारे फौजी धमकी नहीं देते, कार्रवाई करते हैं।’

रोहित शर्मा ने तत्काल प्रभाव से टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, वनडे खेलना जारी रखेंगे



नई दिल्ली (भाषा)। रोहित शर्मा ने बुधवार को तत्काल प्रभाव से टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की जिससे सबसे लंबे प्रारूप में उनके भविष्य को लेकर सभी अटकलें खत्म हो गईं। अब भारत को इंग्लैंड के खिलाफ आगामी पांच मैचों की श्रृंखला के लिए नए कप्तान की जरूरत होगी। यह 38 वर्षीय खिलाड़ी अपने करियर के दूसरे हिस्से में भारत के सबसे सफल टेस्ट बल्लेबाजों में से एक थे। रोहित ने 67 टेस्ट में 12 शतक और 18 अर्धशतक की मदद से 40.57 की औसत से 4301 रन बनाए। पिछले साल विश्व कप के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों से पहले ही संन्यास ले चुके रोहित अब भारत के लिए केवल वनडे प्रारूप में ही नजर आएंगे।

रोहित ने पीटीआई की खबर ब्रेक करने के बाद अपने इंस्टाग्राम पर अपनी टेस्ट कैप के साथ एक फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, ‘‘सभी को नमस्कार, मैं बस यह साझा करना चाहता हूँ कि मैं टेस्ट

क्रिकेट से संन्यास ले रहा हूँ। सफेद जर्सी में

■ रोहित ने 67 टेस्ट में 12 शतक और 18 अर्धशतक की मदद से 40.57 की औसत से 4301 रन बनाए

अपने देश का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात रही है।’’ उन्होंने लिखा, ‘‘इतने सालों तक मिले प्यार और समर्थन के लिए आपका शुक्रिया। मैं वनडे प्रारूप में भारत का प्रतिनिधित्व करना जारी रखूंगा।’’ रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत की कप्तानी की। न्यूजीलैंड के खिलाफ

घरेलू मैदान पर पिछली श्रृंखला और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बोर्डर-गावस्कर श्रृंखला के अलावा कप्तान के रूप में उनका प्रदर्शन प्रभाव रहा। इंग्लैंड में पांच टेस्ट मैच की श्रृंखला के लिए भारत के पास एक नया टेस्ट कप्तान होगा जिसके संभावित उम्मीदवार जसप्रीत बुमराह, लोकेश राहुल, शुभमन गिल और ऋषभ पंत हो सकते हैं। बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया दौर के दौरान कुछ टेस्ट मैचों में टीम की कप्तानी की थी। रोहित ने बोर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान कठिन दौर का सामना किया, जहां उन्हें खराब फॉर्म के कारण अंतिम एकादश से बाहर होने का फैसला करना पड़ा। पर उन्होंने उस समय संन्यास लेने से इनकार कर दिया था।

मुख्य कोच गौतम गंभीर के साथ उनके मतभेदों की भी काफी अटकलें रही थीं जिन्होंने पिछले साल जुलाई में कार्यभार संभालने के बाद भारतीय क्रिकेट में ‘‘स्तर संस्कृति’’ खत्म करने की बात की थी। दोनों ने लगातार इस बात का खंडन किया। लेकिन गंभीर ने बार बार स्पष्ट किया है कि केवल प्रदर्शन ही टीम में चयन सुनिश्चित करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि रोहित को टेस्ट कप्तानी का मुख्य आकर्षण भारत को 2023 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचना था जिसमें टीम को ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा। इसी साल टीम एकदिवसीय विश्व कप के फाइनल में भी ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी।

आईपीएल पाइंट टेबल

टीम	मैच	जीते	हारे	अंक
गुजरात	11	8	3	16
बंगलुरु	11	8	3	16
पंजाब	11	7	3	15
मुंबई	12	7	5	14
दिल्ली	11	6	4	13
कोलकाता	12	5	6	11
लखनऊ	11	5	6	10
हैदराबाद	11	3	7	7
राजस्थान	12	3	9	6
चेन्नई	12	3	9	6



सूर्यकुमार यादव 510 रन मुंबई

प्रसिद्ध कृष्णा 19 विकेट गुजरात

खबर संक्षेप

ताइपे ओपन : श्रीकांत आयुष, दूसरे दौर में

ताइपे। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत ने बुधवार को यहां ताइपे ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शानदार तरीके से शुरू करते हुए सीधे गेम में जीत दर्ज कर कई अन्य युवा खिलाड़ियों के साथ दूसरे दौर में जगह बनाई। विश्व रैंकिंग में 61वें स्थान पर काबिज श्रीकांत ने हमवानत संकर सुब्रमण्यम (2022 विश्व जूनियर चैंपियनशिप रजत पदक विजेता) को 21-16 21-15 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया और अब उनका सामना एक अन्य भारतीय आयुष शेटी से होगा।

नूर और ब्रेविस ने चेन्नई को कोलकाता पर दो विकेट की रोमांचक जीत दिलाई

ब्रेविस का अर्धशतक, नूर अहमद चार विकेट लेकर बने मैन ऑफ द मैच



भाषा ॥ कोलकाता

नूर अहमद की फिर की के जादू के बाद डेवाल्ड ब्रेविस के तूफानी अर्धशतक से चेन्नई सुपरकिंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग मैच में बुधवार को यहां कोलकाता नाइट राइडर्स को बेहद रोमांचक मुकाबले में दो विकेट से हराकर मेजबान टीम की प्ले ऑफ में जगह बनाने की राह बेहद मुश्किल कर दी।

इस जीत के साथ सुपरकिंग्स ने लगातार चार हार के क्रम को तोड़ा दिया लेकिन टीम अब भी 12 मैच में छह अंक के साथ अंतिम पायदान पर है। नाइट राइडर्स की टीम 12 मैच में 11 अंक के साथ छठे स्थान पर है और अधिकतम 15 अंक जुटा सकती है। कप्तान अजिंक्य रहाणे (48), आंद्रे रसेल (38) और मनीष पांडे (नाबाद 36) की पारियों से



नाइट राइड राइडर्स ने छह विकेट पर 179 रन बनाए जिसके जवाब में सुपरकिंग्स ने 60 रन पर पांच विकेट गंवाने के बावजूद डेवाल्ड ब्रेविस (52 रन, 25 गेंद, चार छक्के, चार चौके) के अर्धशतक और शिवम दुबे (45 रन, 40 गेंद, तीन छक्के, दो चौके) के साथ उनकी छठे विकेट की 67 रन की साझेदारी से 19.4 ओवर में आठ विकेट पर 183 रन बनाकर जीत दर्ज की। रहाणे ने 33 गेंद की अपनी पारी में चार चौके और दो छक्के जड़े जबकि रसेल ने अपनी ताबड़तोड़ पारी के दौरान 21 गेंद का सामना करते हुए तीन छक्के और चार चौके मारे। नाइट राइडर्स की ओर से वैभव अरोड़ा ने 48 रन देकर तीन जबकि वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा ने क्रमशः 18 और 43 रन देकर दो-दो विकेट चटकाए।

इससे पहले सुपरकिंग्स की ओर से बाएं हाथ के स्पिनर नूर सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने 31 रन देकर चार विकेट चटकाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरे सुपरकिंग्स की शुरुआत खराब रही और टीम ने तीसरे ओवर में 37 रन तक ही तीन विकेट गंवा दिए। आ यु श म्हात्रे (00) ने अरोड़ा की पारी की दूसरी ही गेंद पर हर्षित आणा को केच थमाया। पदार्पण कर रहे उर्विल पटेल (31, 11 गेंद, चार छक्के, एक चौका) ने अरोड़ा पर छक्के से खाता खोला और फिर अगले ओवर में मोईन अली की लगातार गेंदों पर दो छक्के और एक चौका मारा। मोईन ने हालांकि सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे (00) को बोल्ट कर दिया। सुपरकिंग्स ने रविचंद्रन अश्विन को चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा।

दिल्ली के लिए आज ‘करो या मरो’ का मुकाबला

धर्मशाला। दिल्ली कैपिटल्स को आईपीएल प्लेआफ की दौड़ में बने रहने के लिये फॉर्म में चल रही पंजाब किंग्स के खिलाफ बृहस्पतिवार को करो या मरो के मुकाबले में हार हालत में जीत दर्ज करनी होगी। पिछले पांच मैचों में तीन हारने और एक बेनतीजा रहने के बाद दिल्ली 11 मैचों में 13 अंक लेकर पांचवें स्थान पर है। अक्षर पटेल की कप्तानी वाली टीम अपने घरेलू मैदान अरुण जेटली स्टेडियम पर सिर्फ एक मैच सुपर ओवर में जीत पाई है। पहले चार मैच जीतने वाली दिल्ली की टीम को उम्मीद है कि मैदान बदलने से उसकी तकदीर भी बदलेगी। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ बारिश में घुले पिछले मैच में दिल्ली की बल्लेबाजी ईकाई ने निराश किया। उसके शीर्ष पांच बल्लेबाज 29 रन के स्कोर पर प्लेलाइन में थे और आशुतोष वर्मा की पारी के दम पर ही टीम 133 रन बना सकी। पिछले मैच में करुण नायर से पारी की शुरुआत कराने का दाय भी नहीं चला और वह खाता भी नहीं खोल पाये।

मुशीर, म्हात्रे, शेडगे और रघुवंशी को टी20 मुंबई लीग में अच्छे दाम

एजेसी ॥ मुंबई

युवा मुशीर खान, आयुष म्हात्रे, सूर्याश शेडगे और अंगकृष्ण रघुवंशी को टी20 मुंबई लीग के तीसरे सत्र के लिये प्रारंभिक दौर की नीलामी में अच्छे दाम मिले हैं। यह लीग 26 मई से आठ जून तक खेली जायेगी। इंडियन प्रीमियर लीग में पंजाब किंग्स के लिये खेल रहे 20 वर्ष के मुशीर को आठवीं अंशेरी ने 15 लाख रुपये में खरीदा। मुंबई के लिये इस साल रणजी क्रिकेट में पदार्पण करने वाले म्हात्रे ने आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिये पदार्पण किया। उसे ट्रायल नाइट्स मुंबई नॉर्थईस्ट ने 14 . 75 लाख रुपये में खरीदा।

शेडगे 13.75 लाख में खरीदा गया

शेडगे को भी इसी टीम ने 13 . 75 लाख रुपये में खरीदा। भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव इस टीम के आइकन खिलाड़ी हैं। केकेआर के लिये खेलने वाले रघुवंशी को सोबी मुंबई फाल्कंस ने 14 लाख रुपये में खरीदा। वहीं तनुष कोटियाण को नॉर्थ मुंबई पैथर्स ने 10 लाख रुपये में खरीदा।



पंड्या और नेहरा पर लगा जुर्माना

मुंबई। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या और उनकी टीम पर धोमी ओवरगति के लिये भारी जुर्माना लगाया गया जबकि गुजरात टाइटंस के मुख्य कोच आशीष नेहरा पर खेलभावना के विपरीत आचरण के लिये जुर्माना और डिमिटेड अंक लगाये गए। मुंबई को आईपीएल के वर्षाबाधित मैच में गुजरात ने डकवर्थ लुईस प्रणाली के आधार पर तीन विकेट से हराया। आईपीएल ने एक बयान में कहा, ‘‘ यह आईपीएल आचार संहिता के तहत इस सत्र में उनकी टीम का धोमी ओवरगति का दूसरा अपराध था। पंड्या पर 24 लाख रुपये जुर्माना और गुजरात टाइटंस के मुख्य कोच आशीष नेहरा पर मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। मुंबई की बाकी टीम और पेशानापन्न खिलाड़ियों पर छह लाख रुपये या उनकी मैच फीस के 25 प्रतिशत में से जो कम हो, जुर्माना लगाया गया है। नेहरा की गलती के बारे में बताया नहीं गया लेकिन बार बार बारिश के कारण मैच रूकने के दौरान उन्हें आपा खोते देखा गया। वह मैदानी अंपायरों से भी बार बार बात कर रहे थे।

आपरेशन सिंदूर से आईपीएल टीमों की यात्रा होगी प्रभावित

धर्मशाला हवाई अड्डा बंद!

नई दिल्ली/धर्मशाला। पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर भारत के मिसाइल हमले के बाद धर्मशाला हवाई अड्डा अस्थायी रूप से बंद होने के कारण आईपीएल टीमों की यात्रा का कार्यक्रम प्रभावित हुआ है जिन्हें वहां खेलना है और बीसीसीआई इस अस्थिर स्थिति से निपटने के लिए अपने विकल्पों पर विचार कर रहा है। धर्मशाला में बृहस्पतिवार को पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स का मैच होना है। इसके बाद 11 मई को पंजाब और मुंबई इंडियंस का मैच वहां खेला जाना है। मुंबई आईएम का यात्रा कार्यक्रम भी अभी अनिश्चित है। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए शाम के मैच में ‘फ्लडलाइट्स’ का प्रयोग सुरक्षा मुद्दा है और इसका असर इस बात पर पड़



सकता है कि मैच तय कार्यक्रम के अनुसार होगा या नहीं। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ (एचपीसीए) के एक सूत्र ने बताया, ‘‘हमें बीसीसीआई या केंद्र और राज्य सरकारों से कल के मैच को रद्द करने के बारे में कोई लिखित सूचना नहीं मिली है। जब तक कोई आधिकारिक निर्देश नहीं मिलता, हम कार्यक्रम के

अनुसार ही काम करेंगे।’’ रविवार का मुकाबला अभी ‘‘लॉजिस्टिक’’ चुनौती है क्योंकि एयरपोर्ट के अनिश्चितकालीन बंद होने के कारण मुंबई इंडियंस यात्रा करने की स्थिति में नहीं है। पाता चला है कि बीसीसीआई मैच को मुंबई में स्थानांतरित करने के विकल्प पर विचार कर रहा है।

स्थल परिवर्तन के बारे में नहीं बताया गया : पंजाब

पंजाब किंग्स के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘हमें अभी तक स्थल परिवर्तन के बारे में नहीं बताया गया है। हम बीसीसीआई के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।’’ धर्मशाला पंजाब किंग्स टीम का दूसरा घरेलू मैदान है। पंजाब टीम को यात्रा संबंधी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वे इस सप्ताह के अंत तक वहां रहेंगे। दिल्ली को देखना होगा कि उसके खिलाड़ी वापिस कैसे आयेगे जिनह रविवार को अरुण जेटली स्टेडियम पर गुजरात टाइटंस से खेलना है। बीसीसीआई के एक सूत्र ने कहा, ‘‘ इस समय सब कुछ अनिश्चित है। टीमों से बात चल रही है और वे भी विचार कर रहे हैं कि हवाई अड्डा बंद रहने पर धर्मशाला से दिल्ली वापिस कैसे आना है।’’ सूत्र ने कहा, ‘‘ दिल्ली कैपिटल्स के लिये एक विकल्प बस से लौटने का है लेकिन सिर्फ टीम नहीं बल्कि प्रसाधन टीम और उपकरण भी हैं।’’



एजेसी ►► नई दिल्ली

भारत द्वारा 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक के बाद पूरे देश में राष्ट्रभक्ति का माहौल है। देशभर में आम नागरिकों ने हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतर आए। लोगों ने पटाखे फोड़े, मिठाइयां बांटीं और भारत माता की जय के नारे लगाए। लोगों का कहना था कि भारत सरकार ने आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर सबक सिखाया है। देश में कई जगहों पर उत्सव जैसा नजारा रहा। स्थानीय लोगों ने आतिशबाजी करते हुए ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को सलाम किया। लोगों ने कहा कि मोदी सरकार ने एक बार फिर दिखा दिया कि यह 'नया भारत' है, जो बात कम और कार्रवाई ज्यादा करता है। लोगों ने इस कार्रवाई की तारीफ करते हुए कहा कि जैसा भारतीय सेना से उम्मीद थी, उन्होंने वैसा ही कर दिखाया। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया गया है।

पीएम नरेंद्र मोदी और हमारी सेना ने जो किया, वह देश के हर नागरिक के दिल की आवाज थी। पहलगाम में जिन बहनों का सिंदूर उजड़ा, उनके बदले का नाम ही 'ऑपरेशन सिंदूर' है। भारत अब झुकने वाला देश नहीं है। यह वही देश है, जो अब दुश्मन के एक बार पर दस जवाब देने की क्षमता रखता है। लोगों ने पीएम मोदी और सेना को धन्यवाद दिया कि उन्होंने आतंकियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई कर उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दी, जिनकी जानें पहलगाम हमले में गई थीं। रिटायर्ड सैनिकों ने कहा कि हालांकि पहलगाम हमले का बदला ले लिया गया है, लेकिन भारतीय सशस्त्र बल सतर्क हैं।

शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या द्विवेदी ने कहा कि मैं पीएम मोदी, मंत्रियों और वायुसेना और सेना प्रमुख जनरल सहित सशस्त्र बलों के प्रमुखों को मेरे पति की मौत का बदला लेने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। जिस तरह से उन्होंने (पाकिस्तान को) जवाब दिया, उसने हमारा भरोसा कायम रखा।

प्रतिशोध लिया ये सभी

भारत के बदले तेवर देख विरव बोला संयम बरतें

पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर तबाही मचाने वाले भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर दुनियाभर से प्रतिक्रिया आ रही है। इजराइल ने इस मुद्दे पर भारत का खुलकर साथ दिया है। वहीं अन्य देशों ने भारत और पाकिस्तान से संयम बरतने का आग्रह किया है।

भारत की आत्मरक्षा का स्वागत: इजराइल

भारत में इजराइल के राजदूत रूवेन अज़ार ने लिखा कि हम भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का हम समर्थन करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आतंकवादियों को पता होना चाहिए कि निरदोषों के खिलाफ उनके जघम्य अपराधों से छिपने की कोई जगह नहीं है।

बातचीत शांति का रास्ता निकालने का प्रगामी तरीका: यूएई

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने भारत और पाकिस्तान से संयम बरतने और तनाव को बटवने से रोकने का आग्रह किया है। यूएई के विदेश मामलों के उप-प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान ने कहा कि कूटनीति और बातचीत संकटों की शांतिपूर्ण हल करने और शांति का रास्ता निकालने का सबसे प्रगामी तरीका है।

हम दोनों देशों के मित्र: ब्रिटेन

ब्रिटेन के व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स ने कहा कि हम दोनों देशों के मित्र हैं, साझेदार हैं। हम दोनों देशों का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। दोनों देशों की क्षेत्रीय स्थिरता, वार्ता और न्याय कम करने में गहरी रुचि है।

बदला लेंगे, संसद में दावा- भारत के 5 विमान मारे

एजेसी ►► इस्लामाबाद

भारत की तरफ से पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक को पाकिस्तान ने युद्ध के लिए उकसावे की कार्रवाई (एक्ट ऑफ वॉर) कहा है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि वह भारत से इसका बदला लेगा। जगह और समय चुनकर हमला करेंगे। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को पाकिस्तान की संसद में कहा कि भारत ने कारगरा हमला किया। उन्होंने फिर यह दावा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले से पाकिस्तान का कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत के एक्शन में पाकिस्तान को फतह हासिल हुई है। इस हमले के जवाब में पाकिस्तान ने कार्रवाई की, जिसमें 5 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया गया।

पाक पीएम शहबाज शरीफ की गीदड़भभकी

पाक रक्षा मंत्री बोले- हम तनाव कम करने को तैयार

भारत की ओर से आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की सार हकड़ी निकाल दी है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बुधवार को कहा कि अगर भारत तनाव कम करता है तो पाकिस्तान भी ऐसा करने के लिए तैयार है। हम पिछले पखवाड़े से लगातार कह रहे हैं कि हम भारत के खिलाफ कभी भी कोई शत्रुतापूर्ण कार्रवाई नहीं करेंगे।

'ऑपरेशन सिंदूर' से पाक की निकली हेकड़ी

कविता जोशी ►► नई दिल्ली

पिछले महीने 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तान द्वारा अपने पाले हुए आतंकियों की मदद से किए गए हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की कड़ी कार्रवाई को अंजाम दे दिया है। जिसमें पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मौजूद लश्करें तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के कुल 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया है। यहां ध्यान देने वाली बात एक यह भी है कि पाक पंजाब के बहावलपुर में मौजूद आतंकी ठिकानों पर भारत ने 1971 की

लड़ाई के बाद अब निशाना साधा है। लेकिन इन सबके बावजूद भारत और उसकी सशस्त्र सेनाओं (सेना, वायुसेना और नौसेना) को फिलहाल पूरी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारी यह कार्रवाई एक प्रकार से आतंकवाद रूपी सांप को डराकर उसके बिल में वापस भेजने के समान ही है। इससे हालांकि पाकिस्तान और उसकी शरण लिए हुए आतंकियों के हौसले पूरी तरह से नहीं टूटेंगे। यह जानकारी ऑपरेशन सिंदूर के बाद हरिभूमि से बातचीत में रक्षा विशेषज्ञों ने दी।

पहलगाम हमले के बाद भारत की जवाबी सैन्य कार्रवाई पर बोले रक्षा विशेषज्ञ

नापाक हरकत की तो निपट जाएगा पाक

सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी ने कहा कि इस अभियान के जरिए देश की सेनाओं ने हमले में मारे गए पांडित परिवारों की महिलाओं के सिंदूर की लाज रख ली और देश में करोड़ों लोगों का जो आक्रोश था। वह भी अब कम हो जाएगा। यह एक्शन बहुत जरूरी था। वास्तव में इससे भारत को काफी फायदा हुआ है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से हुई बेइज्जती के जवाब में अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है और उसका हम कोई नुकसान हुआ। तो यह बिल्कुल साफ है कि उसके जवाब में उसे मरकर परिणाम भुगाने के लिए तैयार रहना चाहिए। भारत की सख्त प्रतिक्रिया को लेकर मेरे मन में कोई संशय नहीं है।

भारत ने पाक को बनाया अधमरा सांप

कुलकर्णी ने कहा कि भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान की अकल पूरी तरह से ठिकाने पर नहीं आई होगी। अब वह एक अधमरे सांप की तरह हो गया है, जिसका हमने जहर भी नहीं निकाला है। ऑपरेशन सिंदूर से वह और उसके बाकी बचे हुए आतंकवादी जैसे सांप केवल अपने बिलों में छिपकर बैठ गए होंगे। मैं ऐसा तर्क इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि देश की आज की सैन्य कार्रवाई पाक या पीओके में मौजूद पहलगाम हमले के दोषियों पर लक्ष्य था। हमें उन्हें कड़ी सजा देने के मकसद से की गई थी। हमने पाकिस्तान और वहां मौजूद सभी आतंकी कैंपों में मौजूद आतंकवादियों का पूरी तरह से सफाया नहीं किया है। भारत के एक्शन से पड़ोसी देश में केवल डर पैदा किया गया है। जिससे ये उम्मीद की जा सकती है कि दोबारा पाक भारत में आतंक फैलाने की हिमाकत न करे।

बलोच लिबरेशन आर्मी, टीटीपी का बढ़ेगा हौसला

मेजर जनरल अस्थान ने कहा कि भारत के इस एक्शन के बाद पाकिस्तान की परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी गौदड़भभकी साबित हो गई है। वहाँ, इससे पाक सेना के अत्याचारों से त्रस्त बलोच लिबरेशन आर्मी और तत्सक ए तालिबान-पाकिस्तान जैसे संगठनों के हौसले भी कई गुना बढ़ेंगे। मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि भारत की इस कार्रवाई से पाक में मौजूद आतंकवाद का पूरी तरह से खाला नहीं होगा। यहां मैं अमेरिका का उदाहरण देना चाहूंगा जिन्होंने अफगानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ कुल करीब दो दशक तक लड़ाई लड़ी और उसके बाद भी वो आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया करने में नाकाम रहे। अंततः अमेरिकी फौजों को अफगान तालिबान को सत्ता सौंपकर वापस लौटना पड़ा।

पाकिस्तान में फूटे बम, भारत में आतिशबाजी, सेना के पराक्रम से देशभर में जश्न का माहौल, मिठाइयां बांटीं

लोगों ने इस कार्रवाई की तारीफ करते हुए कहा कि जैसा भारतीय सेना से उम्मीद थी, उन्होंने वैसा ही कर दिखाया। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी और हमारी सेना ने जो किया, वह देश के हर नागरिक के दिल की आवाज थी। पहलगाम में जिन बहनों का सिंदूर उजड़ा, उनके बदले का नाम ही 'ऑपरेशन सिंदूर' है।

ऑपरेशन

'सिंदूर'

जीत का

शंखनाद

जीत पर तिरंगा लहराया



बिहार के पटना में स्कूली छात्रों ने तिरंगा लहराकर जीत का जश्न मनाया

मुस्लिम समाज भी साथ में



लखनऊ में मौलाना अब्दुल बारी फारंगी ने स्थानीय बच्चों के साथ तिरंगा लहराया।

पाक का दोहरा चेहरा उजागर: आतंकियों के जनाजे में शामिल हुए सैन्य अधिकारी

लाहौर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना के ताबडतोड हमलों से पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। वहीं, पाकिस्तानी सेना के जवान और मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के प्रतिबंधित संगठन जमात-उद-दावा के सदस्य बुधवार को तीन लोगों के जनाजे में शामिल हुए। ये तीनों बुधवार को मुरीदके में भारतीय सेना के हवाई हमले में मारे गए। मुरीदके लाहौर से करीब 40 किलोमीटर दूर है। जमात उद-दावा के राजनीतिक संगठन पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के प्रवक्ता ताबिश कस्यूम ने कहा कि कारी अब्दुल मलिक, खालिद और मुदरिसर को कड़ी सुरक्षा के बीच नमाज-ए-जनाजा अदा की गई। कस्यूम खुद भी जनाजे में मौजूद थे। इस जनाजे में नागरिक प्रशासन के अधिकारी भी शामिल हुए।

दृश्यत नें पाक आर्मी



मुस्लीके में आतंकियों को बचाने दौड़ पड़े पाक आर्मी के टैंक

सेना की कार्रवाई नें आतंकियों की मौत



आतंकियों को नमाज-ए-जनाजा अदा की गई

राजधानी में

दिनभर चला

उच्चस्तरीय

बैठकों का दौर

हरिभूमि ब्यूरो ►► नई दिल्ली

ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह से ही उच्चस्तरीय बैठकों का लंबा सिलसिला चला। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट और सुरक्षा मामलों की समिति (सीसीएस) की बैठक हुई। तो दूसरी ओर पीएम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर भारतीय सशस्त्र सेनाओं के इस संयुक्त अभियान के बारे में उन्हें विस्तार से जानकारी दी।

इसके अलावा पाक आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के तुरंत बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने अमेरिका समेत दुनिया के

पीएम ने राष्ट्रपति से की मुलाकात, जयशंकर ने कई देशों के सामने रखा भारत का पक्ष

कई अन्य देशों में मौजूद अपने समकक्षों को भारत के इस जवाबी एक्शन और उसके पीछे के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने भी जापान, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन के अपने समकक्षों यानी विदेश मंत्रियों को ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हर घटनाक्रम के बारे में बताया। विदेश मंत्रालय में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों को भी भारत ने अपने इस कदम से अवगत कराया। आने वाले दिनों में भी नई दिल्ली में उच्चस्तरीय बैठकों की यह कवायद जारी रहने की उम्मीद है।

चीन ने जताया खेद

चीन ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चिंता जताते हुए भारत और पाकिस्तान दोनों देशों से शांति के साथ संयम बरतने की अपील की है। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि हम भारत की आज तड़के की गई कार्रवाई पर खेद जताते हैं। चीन वर्तमान हालात पर गंभीर चिंता व्यक्त करता है। साथ ही भारत और पाकिस्तान से आग्रह करता है कि वह शांति और स्थिरता को सर्वोपरि रखें और अत्यधिक शांति के साथ संयम बरतें।

ट्रंप, गुटेरेस ने दी संयम

वहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान से संयम बरतने की अपील की है। विदेश मंत्री जयशंकर ने जापान के विदेश मंत्री से फोन कॉल पर सैन्य अभियान के बारे में उक्त जानकारी साझा की। जबकि जर्मनी और फ्रांस के विदेश मंत्री के साथ उन्होंने जाइंट कॉल पर बात की।

भारत-पाकिस्तान के बीच अब तक हुए सैन्य संघर्ष

साल	युद्ध	शुरू हुआ	खत्म हुआ	दिन
1947-48	भारत-पाक पहला युद्ध	अक्टूबर 1947	जनवरी 1949	
1965	भारत-पाक दूसरा युद्ध	5 अगस्त	23 सितंबर	100
1971	बांग्लादेश मुक्ति युद्ध	24 नवंबर	6 दिसंबर	13
1999	करगिल युद्ध	3 मई	26 जुलाई	85
2016	उरी हमला व सर्जिकल स्ट्राइक	18 सितंबर	28-29 सितंबर	10
2019	पुलवामा हमला व बालाकोट एयरस्ट्राइक	14 फरवरी	26 फरवरी	14
2025	पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर	22 अप्रैल	7 मई	16

ऑपरेशन 'सिंदूर' पर वर्ल्ड मीडिया: भारत ने खुद को साबित किया

ऑपरेशन सिंदूर पर विश्वी मीडिया ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। रिपोर्टों के अनुसार, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर गहराई तक पहुंचकर आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया। यह कार्रवाई भारत की सैन्य क्षमताओं को दर्शाती है और आतंकवाद के खिलाफ उसकी दृढ़ता को स्पष्ट करती है। इस प्रकार, भारत ने एक बार फिर यह साबित किया है कि वह आतंकवाद के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने के लिए तैयार है। अमेरिका में प्रकाशित न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि दो न्यूक्लियर पावर के बीच जंग का खतरा, नहीं रुका तो खतरनाक नतीजे होंगे। वहीं, वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि भारत का पाक पर हमला, जंग की आशंका बढ़ी। बीबीसी ने लिखा, भारत बोला- पाकिस्तान और पीओके पर हमले किए हैं। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने इसे 'कश्मीर काइसिस' कहा है। अखबार ने हमले से पहले मोदी के उस बयान को प्रमुखता से छपा है जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की सेना में बहने वाला पाक बहुर नहीं जाएगा। द डेली मेल ने लिखा कि 2 न्यूक्लियर पावर देश जंग की कगार पर पहुंचे। सीएनएन ने कहा कि पर्यटकों की हत्या के बाद भारत का पाकिस्तान पर हमला। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारत का पाकिस्तान के 6 ठिकानों पर 2 मिसाइल से हमला।

पूरी जिम्मेदारी, परिपक्वता से दिया जवाब

सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी मेजर जनरल एस बी एस अस्थान ने कहा कि भारत की ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई बिना किसी उकसावे के पूरी जिम्मेदारी, सटीकता और परिपक्वता के साथ की गई है। हमने खुफिया इनपुट के आधार पर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर उन्हें नष्ट किया है। दूसरी तरफ अब भारत ने पाकिस्तान को काफी मुसीबत में खाल दिया है। क्योंकि अगर उनकी सेना जवाबी कार्रवाई नहीं करेगी तो उनकी इज्जत खराब होगी और पाकिस्तान में बना हुआ वर्चस्व भी कम होगा। लेकिन उन्हें ये भी पता है कि उनकी तुलना में भारत काफी शक्तिशाली है और उन्होंने कोई हठकत की तो भारत की तरफ से काफी मार पड़ेगी। हमारी कार्रवाई से यह साबित होता है कि पाक का एयर डिफेंस काफी कमजोर था। क्योंकि 9 टारगेट भारत ने लैंक किए। पाक सेना रहा और उसे पता ही नहीं चला।

यूं अलग है बालाकोट से ऑपरेशन सिंदूर

सूत्रों ने बताया ऑपरेशन बालाकोट, ऑपरेशन सिंदूर से किस तरह से अलग है। उन्होंने कहा कि पाक में मौजूद आतंकवादियों ने पाकिस्तान के पंजाब में यानी साउथ में मौजूद बहावलपुर और मुरीदके जैसे आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। जबकि सेना ने पाक अधिकृत कश्मीर में मौजूद आतंकी ठिकानों को लक्ष्य बनाकर उन्हें नष्ट किया। यह हमला सेना और वायुसेना का एक संयुक्त अभियान था।

भारत के बॉर्डर से 9 ठिकानों की लोकेशन

सूत्र बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जिन 9 आतंकी कैंपों को नष्ट किया है। उनमें पीओके में मौजूद 5 कैंपों की बिस्त्राज रेखा (एलओसी) से दूरी करीब 25 से 30 किलोमीटर थी। यहां पर आतंकियों के भारत में घुसपैठ करने के लिए लॉच पैड थे। जिन्हें नष्ट किया गया है। वहीं, पाकिस्तान के पंजाब में मौजूद 4 आतंकी ठिकानों की एलओसी से दूरी करीब 110 किलोमीटर की है।